



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/Weekly

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं 1] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 1--जनवरी 7, 2005, (पौष 11, 1926)
No. 1] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 1--JANUARY 7, 2005 (FAUSA 11, 1926)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

PART I—SECTION 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से
सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of
Defence]

रक्षा मंत्रालय
(थल सेना विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 1 जनवरी 2005

सं. 01, दिनांक 8 दिसम्बर 2004--राष्ट्रपति निम्नलिखित नियुक्ति
करते हैं :--

नियमित सेना
विशेष सूची
ग्रिनेडियर्स

नायब सूबेदार (धर्म शिक्षक) के रैंक में

राकेश कुमार पाठक (अब जेसी-449492एफ), 10 जनवरी 2004

दिवाकर
अवर सचिव

सं. 02, दिनांक 13 दिसम्बर 2004--राष्ट्रपति सहर्ष यथा संशोधित थल
सेना अनुदेश 74/76 के अधीन निम्नलिखित नियुक्तियां करते हैं :--

नियमित सेना
स्थायी आयोग

लेफ्टिनेन्ट के पद पर (परख पर)

प्रदीप कुमार (एम आर-08015एक्स) ए एम सी, 27 फरवरी 2004

एच. रामा (एम आर-08018एच) ए एम सी, 27 फरवरी 2004
दोशा डबास (एम आर-08019एन) ए एम सी, 27 फरवरी 2004
विवेक सूद (एम आर-08020एच) ए एम सी, 27 फरवरी 2004
गुरदर्शदीप सिंह मदान (एम आर-08021एल) ए एम सी, 27 फरवरी
2004

अंकित सिंहल (एम आर-08023डब्ल्यू) ए एम सी, 27 फरवरी 2004
सुप्रीत सिंह नय्यर (एम आर-08024वाई) ए एम सी, 27 फरवरी 2004
विवेन्द्र मालिक (एम आर-08025एफ) ए एम सी, 27 फरवरी 2004
प्रीयंका मिश्रा (एम आर-08026के) ए एम सी, 27 फरवरी 2004
कुणाल किशोर (एम आर-08027एम) ए एम सी, 27 फरवरी 2004
गौरव रेलहन (एम आर-07857डब्ल्यू) ए एम सी, 22 फरवरी 2003
सर्जन सब लेफ्टिनेन्ट के पद पर (परख पर)

मयंक अजय कक्कर (एम आर-7964एक्स) ए एम सी, 26 अगस्त
2003

जावेद खुरेशी (एम आर-07970एल) ए एम सी, 26 अगस्त 2003

एम. श्रीवास्तव
क्रिनेडियर्स
उप महानिदेशक (कार्यिक)

सं. 03, दिनांक 14 दिसम्बर 2004--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित नियुक्तियां करते हैं :--

नियमित सेना
(अल्प सेवा आयोग)
लै. के पद पर

निम्नलिखित अधिकारी ने अल्प सेवा आयोग छः मास का समय जो कि 07 सितम्बर 2002 को शुरू हुआ था, लै. के पद पर पूरा कर लिया है। उसको उसी दिनांक 07 सितम्बर 2002 से अल्प सेवा आयोग लै. के पद पर पांच वर्ष के लिये विशेष सेनानुदेश 3/एस/98 संशोधित के अन्तर्गत प्रदान किया जाता है।

गौरव सेठ (एस एस-39797ए), इन्फैन्ट्री निदिष्टता ज्येष्ठता लै. नरिन्दर सिंह चिख (एस एस-39796एक्स), ए.एस.सी. जिसका नाम भारत के राजपत्र 29 नवम्बर 2003 को हो चुका है, उसी में अंकित किया जाता है।

निम्नलिखित महिला अधिकारियों ने अल्प सेवा आयोग (परखाधीन) का छः मास का समय जो कि 20 मार्च 2004 से शुरू हुआ था, पूरा कर लिया है। उनको उसी तिथि 20 मार्च 2004 से लै. के पद पर पांच वर्ष के लिये अल्प सेवा आयोग सेनानुदेश 1/एस/92 के अन्तर्गत प्रदान किया जाता है।

डब्ल्यू एस नं.	नाम	आर्म/सर्विस
1	2	3
00847के	रश्मि नारायण	इन्ट
00849वी	मनदीप विदी	ए.एस.सी.
00850के	पल्लवी सिंह	ए.डी.ए.
00851एम	श्वेता अरोड़ा	ए.ओ.सी.
00852पी	गायत्री भालचन्द्रा कुलकर्णी	सिगनल
00853एक्स	प्रियंका सिंह	ए.एस.सी.
00854ए	शगुन गोगिया	ए.ओ.सी.
00855एच	गायकवाड़ स्मिता रमाकान्त	इंजीनियर
00856एल	विजयता ठाकुर	ई.एम.ई.
00858डब्ल्यू	एग्नेस प्रफुल्ला मिनेजस	ए.ई.सी.
00861डब्ल्यू	रवनीत	ई.एम.ई.
00862वाई	निकिता मंगरूलकर	ए.ओ.सी.
00864के	मनलीन कौर बाजवा	ए.ओ.सी.
00866पी	नम्रता पी पल्लव	ए.डी.ए.
00867एक्स	धौहान राखी रामवीर सिंह	ए.एस.सी.
00868ए	सुमुद्र सिंह	ए.डी.ए.
00871ए	काजली सहगल	ए.एस.सी.
00872एच	रंजीता साहु	ई.एम.ई.
00873एल	एन बिन्दु	ए.एस.सी.

1	2	3
00874एन	संगीता सोनार	ए.ओ.सी.
00875डब्ल्यू	गुराय जसमीत कौर जगतार सिंह	ए.एस.सी.
00876वाई	जोरामपारी ओईनाम	ए.एस.सी.
00877एफ	सूसन रॉय	इंजीनियर
00878के	ऋचा पाठक	ए.एस.सी.
00879एम	नम्रता नरुका	ए.डी.ए.
00881के	रुचिका मैहता	इंजीनियर
00883पी	के. सुमती	ए.ओ.सी.
00884एक्स	कुलकर्णी गौरी सुभाष	ए.ओ.सी.
00885ए	नीलम ठाकुर	ए.ओ.सी.
00886एच	अनु शर्मा	ए.ओ.सी.
00887एल	दीप्ति	ए.एस.सी.
00888एन	पूजा गर्ग	इंजीनियर
00889डब्ल्यू	दुर्गा वती	ए.एस.सी.
00890एल	हरकिरण	ए.डी.ए.
00891एन	रूमा पीटर	इंजीनियर
00894एफ	अहिरकर सोनाली प्रभाकर	ए.ओ.सी.
00895के	सर्वज्योत कौर	ए.ओ.सी.
00897पी	दीपा बोहरा	ई.एम.ई.
00898एक्स	शालिनी नेगी	ए.डी.ए.
00901एम	रक्षिता	ए.ओ.सी.
00902पी	विद्या राजन	ए.एस.सी.
00905एच	प्रियादर्शिनी पूजा नायक	ए.डी.ए.
00906एल	गीतिका	ए.एस.सी.
00907एन	अंजली भट्ट	इन्ट
00908डब्ल्यू	रजनी शर्मा	जे.ए.जी.
00909वाई	दिवजोत कौर चावला	ए.एस.सी.
00911डब्ल्यू	लतिका शुक्ला	ए.एस.सी.
00912वाई	आदिति गोस्वामी	ए.ई.सी.
00915एम	पल्लवी जमवाल	ए.ओ.सी.
00916पी	प्रीति तिवारी	ए.ओ.सी.
00917एक्स	परमिन्दर कौर	ए.एस.सी.
00921ए	इन्दु पि	इंजीनियर

सेनानुदेश 10/96 (सूची पत्र संख्या 9 दिनांक 01 जून 1996) विशेष सेनानुदेश 1/एस/92 के अन्तर्गत निम्नलिखित महिला अधिकारियों को विशेष अल्प सेवा आयोग (परखाधीन) लै. के पद पर उनको 06 अक्टूबर 2003 से प्रदान किया जाता है। उनको प्रशिक्षण की समाप्ति पर विशेष सेनानुदेश

1/एस/92 के अन्तर्गत 20 मार्च 2004 से प्रदान किया जाता है। उनको दो वर्ष पूर्व दिनांक 20 मार्च 2002 से वेतन तथा उन्नति के लिये उपरोक्त सेनानुदेश के अन्तर्गत प्रदान किया जाता है।

डब्ल्यू एस नं.	नाम	आर्म/सर्विस
1	2	3
00848एम	स्मिता शंकर वागबंदे	सिगनल
00857एन	भावसार जान्हवी मुकेश	ई.एम.ई.
00859वाई	प्रिती जनार्दन भिरीकर	सिगनल
00860एन	एस. फ्रेनी फ्रॉन्सीस	ई.एम.ई.
00863एफ	गरिमा सिंह	इंजीनियर
00865एम	मधु जम्बाल	सिगनल
00869एच	एस. कविता रेड्डी	ई.एम.ई.
00870एक्स	घोष विदिशा रामेन्दु सुन्दर	सिगनल
00880एफ	गुंजन गुप्ता	सिगनल
00882एम	अन्शुला	ई.एम.ई.
00899ए	निशा सिंह	इंजीनियर
00900के	पोतदार शुभांगी उत्तमकुमार	सिगनल
00903एक्स	जसरीन हिल्लन	इंजीनियर
00904ए	रायकर प्रार्थना चन्द्रकान्त	इंजीनियर
00910एन	बबीता	इंजीनियर
00913एफ	सोनल शर्मा	सिगनल
00914के	सुगंधन शोमी कृष्णन	ई.एम.ई.
00920एक्स	हेमावती के. एन.	सिगनल
00922एच	दहिया रीतू मोहिन्द सिंह	ई.एम.ई.

अरविन्द कुमार
मेजर
उप सह सेना सचिव 8वीं

कार्यालय महानिदेशक सरास सेना चिकित्सा सेवा

सं. 04, दिनांक 13 दिसम्बर 2004--राष्ट्रपति महोदय, निम्नलिखित महिला चिकित्सा अधिकारी, (परिवार कल्याण) को उनके नाम के आगे दर्शाया तिथि से परीक्षा अवधि से मुक्त करते हैं तथा महिला चिकित्सा अधिकारी (परिवार कल्याण) के पद पर मूल रूप से नियुक्त करते हैं।

नाम	नियुक्ति की तिथि	परीक्षा समाप्ति की तिथि	स्थायीकरण की तिथि
डा. (श्रीमती) नीना तरुण शर्मा	23.10.2001	22.10.2003	23.10.2003

संजय सिन्हा
एससीएसओ
संयुक्त निदेशक/डीजी-3डी

तटरक्षक मुख्यालय

सं. 05, दिनांक 9 दिसम्बर 2004--राष्ट्रपति निम्नलिखित को, उनके नाम के समक्ष दर्शाई गई तिथि से, तटरक्षक में सहायक कमांडेंट (जीडी/तकनीकी) के रूप में नियुक्त करते हैं :--

क्रम	नियुक्ति	कार्यारम्भ करने की तिथि	वैयक्तिक नंबर (पी संख्या)
1	2	3	4
सामान्य ड्यूटी (श्री/सर्वश्री)			
कैलाश सिंह	तटरक्षक में वेतनमान रुपए 8000-275-13500 में दो वर्ष की परीक्षाधीन अवधि सहित सहायक कमांडेंट (जीडी/ पीएन) तथा (तकनीकी) के रूप में नियुक्त।	28.6.2004	0624-क्यू
दिनेश कुमार	-तदैव-	-तदैव-	0625-एस
विश्वेक डोगरा	-तदैव-	-तदैव-	0626-वी
नवतेज सिंह सोहल	-तदैव-	-तदैव-	0627-एक्स
टी रमेश वसंत	-तदैव-	-तदैव-	0628-सी
श्री निवास गदम	-तदैव-	-तदैव-	0629-डी
अब्दुल्ला रशीम कसिंगल	-तदैव-	-तदैव-	0630-ई
अभिनव गुप्ता	-तदैव-	-तदैव-	0631-क्यू
अमीन बासा	-तदैव-	-तदैव-	0632-एल
मनोज कुमार	-तदैव-	-तदैव-	0633-एम
रश्मि शर्मा	-तदैव-	-तदैव-	0634-पी
सुरेन्द्र नाथ सुमल	तटरक्षक में वेतनमान रुपए 10000-325-15200 में दो वर्ष की परीक्षाधीन अवधि सहित उप कमांडेंट (विधि) के रूप में नियुक्त।	28.6.2004 11.11.2004	0624-क्यू 0635-क्यू
(तकनीकी)			
अभिनव शर्मा	तटरक्षक में वेतनमान रुपए 8000-275-13500 में दो वर्ष की परीक्षाधीन अवधि सहित सहायक कमांडेंट (जीडी/ पीएन) तथा (तकनीकी) के रूप में नियुक्त।	28.6.2004	5066-जे
वरणमोत सिंह	-तदैव-	-तदैव-	5087-एल
धीरज मिश्रा	-तदैव-	-तदैव-	5088-एम
ई डी एस राजन	-तदैव-	-तदैव-	4131-एम
राजेश कुरियन	-तदैव-	-तदैव-	4132-पी
ए बी वाई पीटर	-तदैव-	-तदैव-	4133-क्यू
आर अरविंद	-तदैव-	-तदैव-	4134-एस

जी एस औध्वासी
अवर सचिव (कार्यिक)

थल सेना विभाग

सं. 05, दिनांक 8 दिसम्बर 2004--राष्ट्रपति सहर्ष, निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

नियमित सेना

वायु रक्षा तोपखाना कोर

नायब सूबेदार के पद में

आरएचएम नत्थी सिंह (सं. 14469111एम अब जेसी-299024एन), 31 अगस्त 2004/01 जनवरी 2004×

बीएचएम डोहाले हेतराम बिठोबा (सं. 14372951एच अब जेसी-299025डब्ल्यू), 09 जुलाई 2004/06 मई 2004×

बीएचएम शंकर सिंह (सं. 14368006पी अब जेसी-299026वाई), 22 जुलाई 2004/11 जून 2004×

आरएचएम तारा चंद (सं. 14359645पी अब जेसी-299027एफ), 12 अगस्त 2004/01 जुलाई 2004×

आरएचएम एस सैकर (सं. 14356299एक्स अब जेसी-299028के), 24 अगस्त 2004/20 जुलाई 2004×

बीएचएम राज सिंह (सं. 14367703एच अब जेसी-299029एम), 25 जुलाई 2004/24 जुलाई 2004×

बीएचएम यू अयानार (सं. 14361724एच अब जेसी-299030एफ), 23 अगस्त 2004/30 जुलाई 2004×

हवलदार मोतीलाल पारित (सं. 14373315एफ अब जेसी-299031के), 18 अगस्त 2004/01 अगस्त 2004×

आरएचएम सतपाल (सं. 14359636एन अब जेसी-299032एम), 28 अगस्त 2004/01 अगस्त 2004×

बीएचएम बालाकृष्णन वी (सं. 14369075एक्स अब जेसी-299033पी), 25 अगस्त 2004/03 अगस्त 2004×

बीएचएम किरन कुमार सिंह गौतम (सं. 14348469एच अब जेसी-299034एक्स), 31 अगस्त 2004/03 अगस्त 2004×

बीएचएम अशोक कुमार सिंह (सं. 14354856एन अब जेसी-299035ए), 07 सितम्बर 2004/08 अगस्त 2004×

बीएचएम पाला सिंह (सं. 14371365एन अब जेसी-299036एच), 31 अगस्त 2004/11 अगस्त 2004×

हवलदार वेंकाटेशन पी (सं. 14469246एन अब जेसी-299037एल), 01 सितम्बर 2004

बीएचएम पट्टान उस्मान खान (सं. 14357376पी अब जेसी-299038एन), 01 सितम्बर 2004

बीएचएम जोगिंदर सिंह (सं. 14476183वाई अब जेसी-299039डब्ल्यू), 19 फरवरी 2004/01 फरवरी 2004×

बीएचएम लियाकत अली (सं. 14468553वाई अब जेसी-299040एल), 05 अगस्त 2004/01 जुलाई 2004×

बीएचएम अतर सिंह यादव (सं. 14360381एल अब जेसी-299041एन), 15 अगस्त 2004/01 अगस्त 2004×

बीएचएम प्रदिपन के (सं. 14368374के अब जेसी-299042डब्ल्यू), 20 अगस्त 2004/01 अगस्त 2004×

बीएचएम लांडगे अशोक मानिकराव (सं. 14351283के अब जेसी-299043वाई), 08 सितम्बर 2004/01 अगस्त 2004×

बीएचएम रफीक हैरेंज (सं. 14352349एफ अब जेसी-299044एफ), 08 सितम्बर 2004/01 अगस्त 2004×

बीएचएम दशरथ माबीहल (सं. 14361861एफ अब जेसी-299045के), 08 सितम्बर 2004/07 अगस्त 2004×

बीएचएम लाला राम यादवा (सं. 14354380एम अब जेसी-299046एम), 15 सितम्बर 2004/31 अगस्त 2004×

बीएचएम पी चिन्नाथीयन (सं. 14354199एम अब जेसी-299047पी), 15 सितम्बर 2004/31 अगस्त 2004×

हवलदार इंद्रपाल सिंह (सं. 14352189एम अब जेसी-299048एक्स), 15 सितम्बर 2004/31 अगस्त 2004×

बीएचएम राम सिंह (सं. 14346604एम अब जेसी-299049ए), 15 सितम्बर 2004/31 अगस्त 2004×

बीएचएम हरीशा चंद्र ठाकुर (सं. 14342470एफ अब जेसी-299050पी), 18 सितम्बर 2004/31 अगस्त 2004×

बीएचएम शिब राज सिंह (सं. 14343006के अब जेसी-299051एक्स), 18 सितम्बर 2004/31 अगस्त 2004×

बीएचएम साजी वी पी (सं. 14365094एल अब जेसी-299052ए), 01 सितम्बर 2004

बीएचएम आजाद सिंह (सं. 14382244एम अब जेसी-299053एच), 01 सितम्बर 2004

बीएचएम अशोक कुमार टि (सं. 14363315एन अब जेसी-299054एल), 08 सितम्बर 2004/01 सितम्बर 2004×

बीएचएम नाबा कुमार मंडल (सं. 14365505वाई अब जेसी-299055एन), 12 सितम्बर 2004/01 सितम्बर 2004×

बीएचएम जनार्दन मिशर (सं. 14353048के अब जेसी-299056डब्ल्यू), 10 सितम्बर 2004/26 जुलाई 2004×

हवलदार हरी ओम शर्मा (सं. 15103682एच अब जेसी-299057वाई), 29 सितम्बर 2004/30 जुलाई 2004×

बीएचएम जी लक्ष्मनन (सं. 14358549एन अब जेसी-299058एफ), 20 सितम्बर 2004/31 जुलाई 2004×

हवलदार अश्वसधामा (सं. 14362433पी अब जेसी-299059के), 30 सितम्बर 2004/01 अगस्त 2004×

बीएचएम रविंद्र कुमार (सं. 14356803एन अब जेसी-299060वाई), 21 सितम्बर 2004/19 अगस्त 2004×

बीएचएम जय सिंह (सं. 14355629ए अब जेसी-299061एफ), 23 सितम्बर 2004/25 अगस्त 2004×

बीएचएम राजवीर शर्मा (सं. 14367856एम अब जेसी-299062के), 01 सितम्बर 2004

बीएचएम मंजीत सिंह (सं. 14369300एफ अब जेसी-299063एम), 18 सितम्बर 2004/01 सितम्बर 2004×

बीएचएम बरजींदर सिंह (सं. 14355762एच अब जेसी-299064पी), 25 सितम्बर 2004/01 सितम्बर 2004×

बीएचएम पाटिल लाहू गनपति (सं. 14359075के अब जेसी-299065एक्स), 01 अक्टूबर 2004/05 सितम्बर 2004×

आरएचएम गुरदयाल सिंह (सं. 14358133डब्ल्यू अब जेसी-299066ए), 01 अक्टूबर 2004

बीएचएम जनक राज (सं. 14362374एन अब जेसी-299067एच), 01 अक्टूबर 2004

बीएचएम पांडुरंग पाटिल (सं. 14377745एच अब जेसी-299068एल), 01 अक्टूबर 2004

हवलदार निर्मल कुमार साहू (सं. 14368917एल अब जेसी-299069एन), 15 अक्टूबर 2004/01 अक्टूबर 2004×

×(पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता)

राजेन्द्र चतुर्वेदी
अवर सचिव

विद्युत एवं यांत्रिकी इंजीनियरिंग कोर

सं. 07, दिनांक 10 दिसम्बर 2004—राष्ट्रपति श्री जयप्रकाश पी, कार्यालय अधीक्षक को दिनांक 23 जनवरी 2004 (पूर्वाह्न) से ई. एम. ई. कोर, रक्षा मंत्रालय में ई.एम.ई. आफिसर (सिविलियन) के स्तर पर पदोन्नत करते हैं।

वह दो वर्षों की परख अवधि पर रहेंगे।

राष्ट्रपति श्री अब्दुल ग़ाफ़िर ख़ान, ड्राफ्ट्समैन ग्रेड-1 को दिनांक 19 मार्च 2004 (पूर्वाह्न) से ई. एम. ई. कोर, रक्षा मंत्रालय में चीफ ड्राफ्ट्समैन के स्तर पर पदोन्नत करते हैं।

वह दो वर्षों की परख अवधि पर रहेंगे।

एन. के. कश्मीरा
उप सचिव

सं. 08, दिनांक 9 दिसम्बर 2004—राष्ट्रपति, निम्नलिखित नियुक्तियां करते हैं :—

नियमित थल सेना

सेना चिकित्सा कोर

नायब सूबेदार (एम्बुलेन्स असिस्टेंट) के रैंक में

हवलदार बलवन्त सिंह (सं. 13946811ए अब जेसी-694765पी), 13 मई 2004

हवलदार अजीत सिंह यादव (सं. 13946962वाई अब जेसी-694766एक्स), 12 मई 2004

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 मई 2004 से दी जायेगी)

हवलदार राज नाथ राय (सं. 134947060डब्ल्यू अब जेसी-694767ए), 05 जुलाई 2004

हवलदार सुनील कुमार सिन्हा (सं. 13947103ए अब जेसी-694816एक्स), 22 जुलाई 2004

हवलदार नन्दजी दुबे (सं. 13947127के अब जेसी-694768एच), 05 जुलाई 2004

हवलदार परितोष कुमार साहा (सं. 13947368के अब जेसी-694769एल), 05 जुलाई 2004

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जून 2004 से दी जायेगी)

हवलदार रथवा मलिया भाई भुना भाई (सं. 13947493एन अब जेसी-694817ए), 01 अगस्त 2004

हवलदार नोबिल च गोर्गई (सं. 13948151एम अब जेसी-694818एच), 26 अगस्त 2004

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अगस्त 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार (ड्राइवर) के रैंक में

हवलदार करमबीर (सं. 13946673के अब जेसी-694770ए), 19 जून 2004

हवलदार हृदयानन्द राम (सं. 13947054एच अब जेसी-694771एच), 19 जून 2004

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जून 2004 से दी जायेगी)

हवलदार हरी शंकर प्रसाद (सं. 13947067ए अब जेसी-694820ए), 08 जुलाई 2004

हवलदार श्रीनिवास सिंह (सं. 13947124डब्ल्यू अब जेसी-694772एल), 01 जुलाई 2004

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जुलाई 2004 से दी जायेगी)

हवलदार राजेन्द्र प्रसार गुप्ता (सं. 13947218एन अब जेसी-694821एच), 24 अगस्त 2004

हवलदार बीरेन्द्र प्रसाद सिंह (सं. 13947228एक्स अब जेसी-694822एल), 10 सितम्बर 2004

हवलदार महेन्द्र चन्द्र रे (सं. 13947554ए अब जेसी-694823एन), 21 अगस्त 2004

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अगस्त 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार (नर्सिंग टेक्निशियन) के रैंक में

नायक कमलेश कुमार पाण्डेय (सं. 13972122डब्ल्यू अब जेसी-694307वाई), 10 मार्च 2003

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 13 सितम्बर 2002 से दी जायेगी)

हवलदार अर्जन सिंह (सं. 13961366के अब जेसी-694606एक्स), 26 फरवरी 2004

हवलदार पूरन चन्द्र जोशी (सं. 13961779एन अब जेसी-694607ए), 28 फरवरी 2004

नायक ए वी आर श्रीनागेश (सं. 13968782डब्ल्यू अब जेसी-694608एच), 25 फरवरी 2004

नायक पॉल एन पी (सं. 13969006एच अब जेसी-694609एल), 26 फरवरी 2004

नायक चन्द्र मोहन सिंह (सं. 13969091डब्ल्यू अब जेसी-694610ए), 27 फरवरी 2004

नायक रमेश चन्द्र (सं. 13969649ए अब जेसी-694611एच), 25 फरवरी 2004

नायक रनबीर सिंह (सं. 13970506एम अब जेसी-694612एल), 26 फरवरी 2004

नायक ओंकार (सं. 13971558एम अब जेसी-694613एन), 27 फरवरी 2004

नायक सोनावाने श्रीराम ठाकुरनाथ (सं. 13971869एच अब जेसी-694614डब्ल्यू), 28 फरवरी 2004

नायक सतीश कुमार (सं. 13972059एम अब जेसी-694615वाई), 27 फरवरी 2004

नायक दिनेश चन्द्र (सं. 13972137वाई अब जेसी-694616एफ), 27 फरवरी 2004

नायक बारे लाल (सं. 13972117एल अब जेसी-694617के), 25 फरवरी 2004

नायक अशोक कुमार मिश्रा (सं. 13972750एल अब जेसी-694618एम), 24 फरवरी 2004

नायक रमेश चन्द्र (सं. 13973450डब्ल्यू अब जेसी-694619पी), 26 फरवरी 2004

नायक अजीत सिंह (सं. 13973428एल अब जेसी-694620के), 27 फरवरी 2004

नायक धूमल कालीदास नर्सिंग (सं. 13974150एफ अब जेसी-694621एम), 26 फरवरी 2004

नायक गवहाने रामदास सीताराम (सं. 13974146वाई अब जेसी-694622पी), 25 फरवरी 2004

नायक गोपाल सिंह सामन्त (सं. 13974228एफ अब जेसी-694623एक्स), 24 फरवरी 2004

नायक अक्वते मंगलदास मारुति (सं. 13974294के अब जेसी-694624ए), 27 फरवरी 2004

नायक बृजेश कुमार मिश्रा (सं. 13974249एक्स अब जेसी-694625एच), 01 मार्च 2004

नायक पी चन्द्र सेकरन (सं. 13974352एच अब जेसी-694626एल), 25 फरवरी 2004

नायक भारत भूषण वर्मा (सं. 13974375के अब जेसी-694627एन), 26 फरवरी 2004

नायक सन्तोष कुमार रघुवंशी (सं. 13974449एन अब जेसी-694628डब्ल्यू), 25 फरवरी 2004

नायक दिनेश पाण्डेय (सं. 13974550एन अब जेसी-694629वाई), 26 फरवरी 2004

नायक नवीन चन्द्र (सं. 13974604के अब जेसी-694630एन), 23 फरवरी 2004

नायक कैलाश चन्द्र सिंह (सं. 13974613डब्ल्यू अब जेसी-694631डब्ल्यू), 24 फरवरी 2004

नायक राजान्द्र कुमार जोशी (सं. 13974605एम अब जेसी-694632वाई), 21 फरवरी 2004

नायक कुलदीप सिंह (सं. 13974645एन अब जेसी-694633एफ), 26 फरवरी 2004

नायक मामराज सिंह (सं. 13975073के अब जेसी-694634के), 27 फरवरी 2004

नायक व्यास जायेश अरविन्द भाई (सं. 13974181एफ अब जेसी-694635एम), 24 फरवरी 2004

नायक अशोक कुमार वी आर (सं. 13974431एक्स अब जेसी-694636पी), 25 फरवरी 2004

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 29 अगस्त 2003 से दी जायेगी)

स्थायी सूबेदार मेजर (फिजियोथेरेपी असिस्टेंट) के रैंक में

सूबेदार बिनोद शर्मा (जेसी-690529डब्ल्यू), 01 अगस्त 2003

स्थायी सूबेदार मेजर (लेबोरेटरी असिस्टेंट) के रैंक में

सूबेदार सधन कुमार सिंघा (जेसी-691301एम), 01 मई 2003

स्थायी सूबेदार मेजर (साइक्रियाट्रिक नर्सिंग असिस्टेंट) के रैंक में

सूबेदार अनरुद्ध प्रसाद पाण्डेय (जेसी-691698के), 01 नवम्बर 2003

स्थायी सूबेदार मेजर (लेबोरेटरी टेक्निशियन) के रैंक में

सूबेदार शेर सिंह चौहान (जेसी-691315एम), 01 नवम्बर 2003

सूबेदार कन्ना दासन टी (जेसी-691424वाई), 01 मार्च 2004

स्थायी सूबेदार मेजर (रेडियोग्राफर) के रैंक में

सूबेदार किर्जरापु थौडु (जेसी-192195एच), 01 फरवरी 2003

सूबेदार वसन्त संकपाल (जेसी-192202एन), 01 जुलाई 2003

सूबेदार अमृत लाल पुरोहित (जेसी-192209एक्स), 01 सितम्बर 2003
 सूबेदार रिशी पाल (जेसी-192210एम), 01 फरवरी 2004
 स्थायी सूबेदार मेजर (आपरेशन रूम असिस्टेंट) के रैंक में
 सूबेदार भूपिन्दर सिंह बंगा (जेसी-690243एफ), 01 सितम्बर 2003
 सूबेदार सुजीत कुमार घोष (जेसी-690400एच), 01 नवम्बर 2003
 सूबेदार गुरु सामी एन (जेसी-690401एल), 01 दिसम्बर 2003
 सूबेदार इन्द्र भूषण पचौरी (जेसी-690903एन), 01 फरवरी 2004
 स्थायी सूबेदार मेजर (डेंटल हाइजेनिस्ट) के रैंक में
 सूबेदार सुमित सेम (जेसी-691305एच), 01 अक्टूबर 2003
 सूबेदार प्रभु दयाल यादव (जेसी-691311डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2003
 स्थायी सूबेदार मेजर (डेंटल टेक्निशियन) के रैंक में
 सूबेदार विजय पाल सिंह भदौरिया (जेसी-198364पी), 01 मार्च 2004
 स्थायी सूबेदार मेजर (फार्मासिस्ट) के रैंक में
 सूबेदार पवार धनन्जय राम चन्द्र (जेसी-690694एफ), 01 अक्टूबर 2003
 सूबेदार हरीश चन्द्र पन्ना (जेसी-690699ए), 01 नवम्बर 2003
 स्थायी सूबेदार (साइकियाट्रिक नर्सिंग असिस्टेंट) के रैंक में
 नायब सूबेदार येन्डरेड्डी चन्द्र बाबू (जेसी-692602एच), 01 सितम्बर 2003
 नायब सूबेदार मधु सुदन पिल्लै पी के (जेसी-692603एल), 01 नवम्बर 2003
 नायब सूबेदार अजब सिंह (जेसी-692693एक्स), 01 जनवरी 2004
 नायब सूबेदार पुरुषोत्तम (जेसी-693342पी), 01 जनवरी 2004
 नायब सूबेदार मोहम्मद गयासुद्दीन (जेसी-693493एन), 01 जनवरी 2004
 स्थायी सूबेदार (फिजियोथेरेपी असिस्टेंट) के रैंक में
 नायब सूबेदार रणजन सिंह (जेसी-693507एच), 01 नवम्बर 2002
 नायब सूबेदार राम बृक्ष चौहान (जेसी-693959एल), 01 अप्रैल 2003
 नायब सूबेदार बंशीधर (जेसी-693523ए), 01 अप्रैल 2003
 नायब सूबेदार आर गोविन्द राज (जेसी-693572एच), 01 जनवरी 2004
 नायब सूबेदार राधा कृष्णन आर (जेसी-693661एफ), 01 जनवरी 2004
 नायब सूबेदार सुनील दत्त गोयल (जेसी-693662के), 01 जनवरी 2004
 नायब सूबेदार लाल चन्द (जेसी-693845ए), 01 जनवरी 2004
 नायब सूबेदार वेद प्रकाश (जेसी-693846एच), 01 अप्रैल 2004

स्थायी सूबेदार (आपरेटिंग रूम असिस्टेंट) के रैंक में
 नायब सूबेदार राजागोपाल जी (जेसी-692213एच), 01 सितम्बर 2002
 नायब सूबेदार युद्धिष्ठिर दीक्षित (जेसी-692192एक्स), 01 मार्च 2003
 नायब सूबेदार तापस कुमार कर्माकर (जेसी-692536एल), 01 मार्च 2003
 नायब सूबेदार भास्कर चक्रवर्ती (जेसी-692537एन), 01 अप्रैल 2003
 नायब सूबेदार मृत्युन्जय विश्वास (जेसी-692538डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2003
 नायब सूबेदार सुरेन्द्र सिंह बिष्ट (जेसी-692539वाई), 01 जुलाई 2003
 नायब सूबेदार बीरबल सिंह (जेसी-692540एन), 01 जुलाई 2003
 नायब सूबेदार एन्ड्रयुस ए पी (जेसी-692542वाई), 01 जुलाई 2003
 नायब सूबेदार रमेश जी (जेसी-692543एफ), 01 अगस्त 2003
 नायब सूबेदार सुरेन्द्र सिंह (जेसी-692544के), 01 अगस्त 2003
 नायब सूबेदार नरेन्द्र नारायण लाल (जेसी-692545एम), 01 सितम्बर 2003
 नायब सूबेदार प्रसन्ना कुमार सिंह (जेसी-692566एच), 01 सितम्बर 2003
 नायब सूबेदार स्वपन कुमार चक्रवर्ती (जेसी-692592के), 01 सितम्बर 2003
 नायब सूबेदार कृष्णन कुट्टी एस (जेसी-692567एल), 01 सितम्बर 2003
 नायब सूबेदार लिविन एक्का (जेसी-692568एन), 01 अक्टूबर 2003
 नायब सूबेदार उधय चन्द्र डॉन (जेसी-692569डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2003
 नायब सूबेदार हरिदासन पी एम (जेसी-692570एल), 01 अक्टूबर 2003
 नायब सूबेदार एम अरुमुगम (जेसी-692571एन), 01 अक्टूबर 2003
 नायब सूबेदार अमर कुमार कुइला (जेसी-692572डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2003
 नायब सूबेदार रतन चन्द्र चक्रवर्ती (जेसी-692573वाई), 01 अक्टूबर 2003
 नायब सूबेदार गौतम शंकर दास (जेसी-692574पी), 01 नवम्बर 2003
 नायब सूबेदार ओम प्रकाश वर्मा (जेसी-692575के), 01 दिसम्बर 2003
 नायब सूबेदार प्रेम शंकर (जेसी-692593एम), 01 दिसम्बर 2003
 स्थायी सूबेदार (आपरेशन रूम असिस्टेंट) के रैंक में
 नायब सूबेदार सुरेश पान्डेय (जेसी-692576एम), 01 दिसम्बर 2003
 नायब सूबेदार इन्द्रमनी प्रसाद पान्डेय (जेसी-692577पी), 01 जनवरी 2004

नायब सूबेदार राधा कृष्णन के (जेसी-692594पी), 01 जनवरी 2004
 नायब सूबेदार राजेन्द्रन एल (जेसी-692595एक्स), 01 जनवरी 2004
 नायब सूबेदार बाला कृष्णा पिल्लै के (जेसी-692596ए), 01 जनवरी 2004
 नायब सूबेदार जलारिया मनसुख मोहन (जेसी-692597एच), 01 फरवरी 2004
 नायब सूबेदार अवतार सिंह (जेसी-692598एल), 01 मार्च 2004
 नायब सूबेदार पी अन्बाङ्गन (जेसी-692599डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2004
 नायब सूबेदार राजेन्द्र सिंह (जेसी-692675पी), 01 अप्रैल 2004
 स्थायी सूबेदार (स्पेशल ट्रीटमेंट असिस्टेंट) के रैंक में
 नायब सूबेदार ओम प्रकाश वर्मा (जेसी-693259एक्स), 01 अप्रैल 2003
 नायब सूबेदार सुभाष चन्द्र (जेसी-693343एक्स), 01 अप्रैल 2003
 नायब सूबेदार जोसेफ वर्गीस (पुथुपरम्पु) (जेसी-693484एम), 01 अप्रैल 2003
 नायब सूबेदार केशवदेव शर्मा (जेसी-693485पी), 01 जुलाई 2003
 नायब सूबेदार प्रसन्ना कुमार एम डी (जेसी-693520एम), 01 सितम्बर 2003
 नायब सूबेदार रामजी एक थामस (जेसी-693562वाई), 01 जनवरी 2004
 नायब सूबेदार मो. मोनिरुल इस्लाम (जेसी-693663एम), 01 जनवरी 2004
 नायब सूबेदार अब्दुल रहमान अन्सारी (जेसी-693780एक्स), 01 फरवरी 2004
 नायब सूबेदार बिकाश चन्द्र सिंघा (जेसी-693862ए), 01 अप्रैल 2004
 स्थायी सूबेदार (डेंटल हाइजेनिस्ट) के रैंक में
 नायब सूबेदार एस शाहुल हमीद (जेसी-693345एच), 01 जनवरी 2003
 नायब सूबेदार चन्द्र शेखर सिंह नेगी (जेसी-693540ए), 25 जनवरी 2003
 नायब सूबेदार वेद प्रकाश मिश्रा (जेसी-693541एच), 01 जुलाई 2003
 नायब सूबेदार पुरुषोत्तमन मविला (जेसी-693522एक्स), 01 सितम्बर 2003
 नायब सूबेदार बिकाश चन्द्र सिन्हा (जेसी-693568ए), 01 अक्टूबर 2003
 नायब सूबेदार दीना नाथ प्रसाद (जेसी-693933डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2003
 नायब सूबेदार रविन्द्रन पिल्लै वी एन (जेसी-693934वाई), 01 अक्टूबर 2003

नायब सूबेदार धरमवीर (जेसी-693935एफ), 01 दिसम्बर 2003
 नायब सूबेदार अहमद खान (जेसी-693965वाई), 01 जनवरी 2004
 नायब सूबेदार रोहतास सिंह (जेसी-694073ए), 01 जनवरी 2004
 नायब सूबेदार खयाली राम (जेसी-694038एक्स), 01 मार्च 2004
 नायब सूबेदार थंगावेल टी (जेसी-694039ए), 01 मार्च 2004
 स्थायी सूबेदार (डेंटल टेक्निशियन) के रैंक में
 नायब सूबेदार पुरुषोत्तमन पी (जेसी-691824एल), 01 मार्च 2003
 नायब सूबेदार समरेश घोष (जेसी-691831एल), 01 मार्च 2003
 नायब सूबेदार मोहन शेट (जेसी-691825एन), 01 अप्रैल 2003
 नायब सूबेदार चिन्नमगाथन के बी (जेसी-691960एफ), 01 जनवरी 2004
 नायब सूबेदार डोडिया नाथा भाई खीमा भाई (जेसी-692156एम), 01 जनवरी 2004
 नायब सूबेदार दिनेश कुमार तिवारी (जेसी-692525वाई), 01 जनवरी 2004
 नायब सूबेदार श्री निवास वर्मा (जेसी-692526एफ), 01 मार्च 2004
 नायब सूबेदार जोस वर्गीस (जेसी-692527के), 01 मार्च 2004
 स्थायी सूबेदार (फार्मासिस्ट) के रैंक में
 नायब सूबेदार राधा किशन (जेसी-692647एच), 01 अक्टूबर 2002
 नायब सूबेदार तपन कुमार घोष (जेसी-692656के), 01 अगस्त 2003
 नायब सूबेदार एल रजियाह (जेसी-692657एम), 01 सितम्बर 2003
 नायब सूबेदार जी सवारी राजन (जेसी-692658पी), 01 अक्टूबर 2003
 नायब सूबेदार दिलबर सिंह (जेसी-692659एक्स), 01 नवम्बर 2003
 नायब सूबेदार मुकुन्द सिंह (जेसी-692660एम), 01 नवम्बर 2003
 नायब सूबेदार दिनेश चन्द्र (जेसी-692661पी), 01 फरवरी 2004
 स्थायी सूबेदार (रेडियोग्राफर) के रैंक में
 नायब सूबेदार राकेश कुमार (जेसी-691804एक्स), 01 फरवरी 2003
 नायब सूबेदार सजीव के एस (जेसी-691805ए), 01 अप्रैल 2003
 नायब सूबेदार अरुण कुमार नायक (जेसी-692144एक्स), 01 सितम्बर 2003
 नायब सूबेदार सतादल दास (जेसी-691982ए), 01 सितम्बर 2003
 नायब सूबेदार तरलोक सिंह (जेसी-691985एच), 01 फरवरी 2004
 नायब सूबेदार प्रेम कुमार (जेसी-692146एच), 01 मार्च 2003
 नायब सूबेदार अशोक कुमार गौतम (जेसी-692147एल), 01 मार्च 2003
 नायब सूबेदार राम रतन (जेसी-692151एन), 01 अप्रैल 2004

नायब सूबेदार सुरेन्द्र कुमार (जेसी-692152डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2004

नायब सूबेदार अनिल कुमार श्रीवास्तव (जेसी-692161एक्स), 01 अप्रैल 2004

स्थायी सूबेदार (एक्सरे असिस्टेंट) के रैंक में

नायब सूबेदार कंवर सिंह (जेसी-691806एच), 13 मई 2003

नायब सूबेदार पलविन्दर जीत सिंह (जेसी-691839एक्स), 01 जुलाई 2003

नायब सूबेदार सुरेश कुमार डांगी (जेसी-692145ए), 01 जनवरी 2004

नायब सूबेदार भानु प्रकाश (जेसी-691986डब्ल्यू), 01 फरवरी 2004

स्थायी सूबेदार (लेबोरेटरी असिस्टेंट) के रैंक में

नायब सूबेदार रविन्द्रनाथ द्विवेदी (जेसी-693333एन), 01 फरवरी 2003

नायब सूबेदार नरेन्द्र नाथ चक्रवर्ती (जेसी-693334डब्ल्यू), 01 फरवरी 2003

नायब सूबेदार महेश सिंह (जेसी-693335वाई), 01 मार्च 2003

नायब सूबेदार के आनन्द राज (जेसी-693375ए), 01 अप्रैल 2003

नायब सूबेदार जितेन्द्र नाथ राय (जेसी-693486एक्स), 01 अप्रैल 2003

नायब सूबेदार अमर सिंह राणा (जेसी-693487ए), 01 मई 2003

नायब सूबेदार चन्द्र शेखर शर्मा (जेसी-693488एच), 01 जुलाई 2003

नायब सूबेदार रविन्द्र सिंह देवणा (जेसी-693489एल), 01 जुलाई 2003

नायब सूबेदार आलेख कुमार प्रधान (जेसी-693542एल), 01 जुलाई 2003

नायब सूबेदार कुमारसन एम (जेसी-693543एन), 01 जुलाई 2003

नायब सूबेदार धरमबीर सिंह दहिया (जेसी-693544डब्ल्यू), 01 जुलाई 2003

नायब सूबेदार दिनेश कुमार मिश्रा (जेसी-693545वाई), 01 सितम्बर 2003

नायब सूबेदार पवार धनजी शंकर (जेसी-693569एच), 01 अक्टूबर 2003

नायब सूबेदार के मोहन राम (जेसी-693570एक्स), 01 नवम्बर 2003

नायब सूबेदार अभयमन्त कुमार (जेसी-693571ए), 01 दिसम्बर 2003

नायब सूबेदार जीवन कुमार डे (जेसी-693659के), 01 दिसम्बर 2003

नायब सूबेदार अविजित भट्टाचार्य (जेसी-693660वाई), 01 जनवरी 2004

नायब सूबेदार चित्तरंजन बेहरा (जेसी-693773एफ), 01 जनवरी 2004

नायब सूबेदार जाधव तनाजी कृष्णा (जेसी-693774के), 01 जनवरी 2004

नायब सूबेदार राजिन्दर सिंह (जेसी-693848एन), 01 फरवरी 2004

स्थायी सूबेदार (डेंटल आपरेटिंग रूम असिस्टेंट) के रैंक में

नायब सूबेदार फूल बदन सिंह (जेसी-693030वाई), 01 अक्टूबर 2003

नायब सूबेदार कैलाश चन्द्र मोहनती (जेसी-692979एम), 01 अक्टूबर 2003

नायब सूबेदार सान्ती नाथ डे (जेसी-693007एल), 01 नवम्बर 2003

नायब सूबेदार सुरेन्द्र सिंह (जेसी-693031एफ), 01 जनवरी 2004

नायब सूबेदार राम चन्द्र बेनिवाल (जेसी-693036ए), 01 जनवरी 2004

नायब सूबेदार जमुना प्रसाद शर्मा (जेसी-693129पी), 01 जनवरी 2004

नायब सूबेदार सुरेश कुमार वी एन (जेसी-693262एक्स), 01 जनवरी 2004

नायब सूबेदार श्रीकुमार टी एम (जेसी-693361ए), 01 जनवरी 2004

नायब सूबेदार एम राजामनिकम (जेसी-693483के), 01 जनवरी 2004

नायब सूबेदार मंजूनाथा एस (जेसी-693561डब्ल्यू), 01 फरवरी 2004

नायब सूबेदार ऋषिकेसन एन (जेसी-693771डब्ल्यू), 01 फरवरी 2004

नायब सूबेदार फ्रेडी कार्डोज जे (जेसी-693772वाई), 01 मार्च 2004

नायब सूबेदार जय प्रकाश (जेसी-693941एफ), 01 अप्रैल 2004

स्थायी सूबेदार (ब्लड ट्रांसफ्यूजन असिस्टेंट) के रैंक में

नायब सूबेदार सुभाष चन्द प्रसाद (जेसी-692608के), 01 सितम्बर 2003

नायब सूबेदार कुन्ज बिहारी (जेसी-692609एम), 01 अक्टूबर 2003

नायब सूबेदार जगदीश प्रसाद स्वामी (जेसी-692611के), 01 अक्टूबर 2003

नायब सूबेदार गणेश चन्द्र मण्डल (जेसी-692691एम), 01 दिसम्बर 2003

नायब सूबेदार फूल बहादुर तमंग (जेसी-593344ए), 01 जनवरी 2004

नायब सूबेदार शेखतर दीन (जेसी-693379डब्ल्यू), 01 जनवरी 2004

नायब सूबेदार इन्द्र बहादुर सिंह (जेसी-693482एफ), 01 जनवरी 2004

नायब सूबेदार रिन्वेन सिमिक (जेसी-693655एन), 01 फरवरी 2004

स्थायी सूबेदार मेजर (एम्बुलेन्स असिस्टेंट) के रैंक में

सूबेदार महिपाल सिंह खुची (जेसी-692052एल), 01 जून 2004

सूबेदार प्रभुनाथ उपाध्याय (जेसी-692056एफ), 01 जून 2004

सूबेदार पशोरी लाल डोगरा (जेसी-692057के), 01 जून 2004

सूबेदार धरमबीर (जेसी-692059पी), 01 अगस्त 2004

सूबेदार सुदर्शन सिंह (जेसी-692061एम), 01 अगस्त 2004

स्थायी सूबेदार (एम्बुलेन्स असिस्टेंट) के रैंक में

नायब सूबेदार पवित्रा कुमार सिन्हा (जेसी-693602पी), 01 जून 2004

नायब सूबेदार जीवन सिंह (जेसी-693604ए), 01 जून 2004

नायब सूबेदार अनिल कुमार सिरोही (जेसी-693605एच), 01 जून 2004

नायब सूबेदार जय पाल सिंह (जेसी-693606एल), 01 जून 2004

नायब सूबेदार राजेन बरौआ (जेसी-693607एन), 01 अगस्त 2004

नायब सूबेदार सोमन फिल्लई जी (जेसी-693608डब्ल्यू), 01 अगस्त 2004

नायब सूबेदार कृष्ण कुमार शुक्ला (जेसी-693679एक्स), 01 सितम्बर 2004

नायब सूबेदार शिव शंकर सिंह (जेसी-693680एम), 01 सितम्बर 2004

स्थायी सूबेदार (ड्राइवर) के रैंक में

नायब सूबेदार राज सेखर बी (जेसी-693882एन), 01 फरवरी 2004

नायब सूबेदार रमेश चन्द्र चौहान (जेसी-693099एच), 01 जुलाई 2004

नायब सूबेदार जनार्दन सिंह (जेसी-693100एच), 01 जुलाई 2004

नायब सूबेदार दनदमुदी राधकृष्णा मुथी (जेसी-693102एक्स), 01 सितम्बर 2004

मोहन सिंह बिष्ट

कर्नल

कर्नल रिकार्ड्स

कृते प्रभारी अधिकारी

नायब सूबेदार (नर्सिंग असिस्टेंट) के रैंक में

हवलदार कदमबाजी राव कुण्डलिका (सं. 2771430एम अब जेसी-694308एफ), 17 अप्रैल 2003

हवलदार श्री कृशन (सं. 13947682एक्स अब जेसी-694333ए), 16 जून 2003

हवलदार ज्ञानेश्वर (सं. 13947690डब्ल्यू अब जेसी-694309के), 16 अप्रैल 2003

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2003 से दी जायेगी)

हवलदार धर्मा नन्द (सं. 13947677एम अब जेसी-694388के), 02 जुलाई 2003

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जून 2003 से दी जायेगी)

हवलदार कदम सुभाष त्रैयाम्बक (सं. 13947732एक्स अब जेसी-694389एम), 30 अगस्त 2003

हवलदार संजीव रंजन सिंह (सं. 13947735एल अब जेसी-694578डब्ल्यू), 10 सितम्बर 2003

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अगस्त 2003 से दी जायेगी)

हवलदार राघवेन्द्र नारायण सिंह (सं. 13947754डब्ल्यू अब जेसी-694508एक्स), 19 सितम्बर 2003

हवलदार रविन्द्र नाथ जेना (सं. 13947787एफ अब जेसी-694509ए), 10 सितम्बर 2003

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2003 से दी जायेगी)

हवलदार केवल चन्द (सं. 13947504पी अब जेसी-694510पी), 13 नवम्बर 2003

हवलदार अमिय रंजन पटनायक (सं. 13947792एम अब जेसी-694511एक्स), 28 नवम्बर 2003

हवलदार एस गोविन्दन (सं. 13947802एल अब जेसी-694512ए), 05 दिसम्बर 2003

हवलदार वेद प्रकाश समस्वाल (सं. 13947834एन अब जेसी-694513एच), 18 दिसम्बर 2003

हवलदार राज कुमार शर्मा (सं. 13947835डब्ल्यू अब जेसी-694514एल), 06 दिसम्बर 2003

हवलदार जय सिंह (सं. 13947840एफ अब जेसी-694515एन), 02 दिसम्बर 2003

हवलदार मान्दू सिंह चौहान (सं. 13947025एन अब जेसी-694516डब्ल्यू), 10 दिसम्बर 2003

हवलदार राम निवास (सं. 13948003एफ अब जेसी-694517वाई), 26 दिसम्बर 2003

हवलदार भुवनेश्वर प्रसाद नौटियाल (सं. 13948046डब्ल्यू अब जेसी-694518एफ), 21 दिसम्बर 2003

हवलदार अजय कुमार (सं. 13948107एच अब जेसी-694738एल), 19 नवम्बर 2003

हवलदार अजीत सिंह (सं. 13948216पी अब जेसी-694519के), 05 दिसम्बर 2003

हवलदार विस्वा कुमार पी ए (सं. 13948316ए अब जेसी-694520वाई), 01 दिसम्बर 2003

हवलदार सन्तोष चन्द (सं. 13948484वाई अब जेसी-694521एफ), 01 दिसम्बर 2003

हवलदार लखवीर सिंह बाजवा (सं. 13948536के अब जेसी-694522के), 06 दिसम्बर 2003

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2003 से दी जायेगी)

हवलदार सुनील चन्द राय (सं. 13949250एफ अब जेसी-694739एन), 06 मई 2004

हवलदार वीरन्द्र सिंह यादव (सं. 13949296केअब जेसी-694523एम), 28 नवम्बर 2003

हवलदार आनन्द सिंह (सं. 13949346क अब जेसी-694524पी), 06 दिसम्बर 2003

हवलदार धरमबीर जून (सं. 13949403ए अब जेसी-694525एक्स), 24 दिसम्बर 2003

हवलदार देश राज (सं. 13949415पी अब जेसी-694526ए), 05 दिसम्बर 2003

हवलदार ब्रह्मास्त दून (सं. 13949416एक्स अब जेसी-694527एच), 15 दिसम्बर 2003

हवलदार ओम प्रकाश (सं. 13948342एफ अब जेसी-694579वाई), 31 दिसम्बर 2003

हवलदार बलजीत सिंह (सं. 13948559एल अब जेसी-694528एल), 15 दिसम्बर 2003

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2003 से दी जायेगी)

हवलदार प्रमोद कुमार सिंह (सं. 13948320एच अब जेसी-694580एन), 10 जनवरी 2004

हवलदार सतबीर सिंह (सं. 13949550एच अब जेसी-694529एन), 16 दिसम्बर 2003

हवलदार कोशी एन एस (सं. 13949545एक्स अब जेसी-694530एच), 09 दिसम्बर 2003

हवलदार बिक्रम सिंह कालाकोटी (सं. 13949556के अब जेसी-694581डब्ल्यू), 06 दिसम्बर 2003

हवलदार सनकू के (सं. 13949563ए अब जेसी-694582वाई), 17 जनवरी 2004

हवलदार रामेश्वर सिंह (सं. 13949564एच अब जेसी-694583एफ), 14 फरवरी 2004

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2003 से दी जायेगी)

हवलदार जोसेफ जैकब (सं. 13949578एच अब जेसी-694584के), 07 फरवरी 2004

हवलदार सतीश कुमार राय (सं. 13949577ए अब जेसी-694585एम), 05 मार्च 2004

हवलदार सुरेश कुमार (सं. 13949572एफ अब जेसी-694680वाई), 09 मार्च 2004

हवलदार दिनेश कुमार पाण्डेय (सं. 13949592पी अब जेसी-694681एन), 18 मार्च 2004

हवलदार जय भगवान सिंह (सं. 13949639डब्ल्यू अब जेसी-694682के), 26 जनवरी 2004

हवलदार निंगथो खोम्बा सिंघा (सं. 13949660एक्स अब जेसी-694586पी), 23 फरवरी 2004

हवलदार लक्ष्मण कुमार (सं. 13949651के अब जेसी-694587एक्स), 20 फरवरी 2004

हवलदार मोहन सिंह (सं. 13949650एन अब जेसी-694588ए), 30 जनवरी 2004

हवलदार नरेश कुमार अग्नावल (सं. 13949657एक्स अब जेसी-694589एच), 12 फरवरी 2004

हवलदार भगवती सिंह (सं. 13949674एक्स अब जेसी-694590एक्स), 29 जनवरी 2004

हवलदार रणधीर सिंह (सं. 13949689ए अब जेसी-694591ए), 09 फरवरी 2004

हवलदार रामफल (सं. 13949700एन अब जेसी-694592एच), 5 फरवरी 2004

हवलदार तपस कुमार सोम (सं. 13948768एच अब जेसी-694593एल), 23 फरवरी 2004

हवलदार मुहम्मद हुसैन (सं. 13949730एल अब जेसी-694531एल), 03 जनवरी 2004

हवलदार आदर्श मोहन (सं. 13949749के अब जेसी-694594एन), 13 फरवरी 2004

हवलदार बलबीर सिंह (सं. 13949750वाई अब जेसी-694740एच), 01 मार्च 2004

हवलदार हरजिंदर सिंह (सं. 13949758एल अब जेसी-694741एल), 02 मार्च 2004

हवलदार जगन नाथ राय (सं. 13949780डब्ल्यू अब जेसी-694595डब्ल्यू), 16 फरवरी 2004

हवलदार राम कुमार (सं. 13949790ए अब जेसी-694683एम), 23 फरवरी 2004

हवलदार सुरेन्द्र कुमार (सं. 13949795वाई अब जेसी-694596वाई), 01 मार्च 2004

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जनवरी 2004 से दी जायेगी)

हवलदार अवारी दत्त सीताराम (सं. 13949820एम अब जेसी-694684पी), 01 मार्च 2004

हवलदार राम सिंह (सं. 13949840ए अब जेसी-694685एक्स), 29 मार्च 2004

हवलदार साहब सिंह (सं. 13949856एल अब जेसी-694686ए), 15 मार्च 2004

हवलदार सन्तोष कुमार दुबे (सं. 13949912वाई अब जेसी-694687एच), 15 मार्च 2004

हवलदार ओमवीर सिंह (सं. 13949933पी अब जेसी-694742एन), 31 मार्च 2004

हवलदार उन्नी कृष्णन पी (सं. 13949938एन अब जेसी-694688एल), 09 मार्च 2004

हवलदार लक्ष्मण प्रसाद चौबे (सं. 13949944एफ अब जेसी-694743डब्ल्यू), 12 अप्रैल 2004

हवलदार सत नारायण (सं. 13950038एफ अब जेसी-694597एफ), 01 मार्च 2004

हवलदार धरमपाल (सं. 13950043एफ अब जेसी-694598के), 23 फरवरी 2004

हवलदार फूल कुमार कौशिक (सं. 13948983एन अब जेसी-694689एन), 04 मार्च 2004

हवलदार घीसू सिंह (सं. 13950115ए अब जेसी-694690एच), 19 मार्च 2004

हवलदार वर्गीस पी वी (सं. 13950176एक्स अब जेसी-694691एल), 24 मार्च 2004

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 फरवरी 2004 से दी जायेगी)

हवलदार राम निवास (सं. 13950172एफ अब जेसी-694692एन), 20 मार्च 2004

हवलदार वेद प्रकाश सिंह (सं. 13950173के अब जेसी-694599एम), 01 मार्च 2004

हवलदार मांकि चन्द घोष (सं. 13950417एम अब जेसी-694600डब्ल्यू), 01 मार्च 2004

हवलदार राजेन्द्र प्रसाद (सं. 13950514के अब जेसी-694693डब्ल्यू), 03 मार्च 2004

हवलदार सुभाष चन्द्र सिल्लवाल (सं. 13950542डब्ल्यू अब जेसी-694601वाई), 03 मार्च 2004

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 मार्च 2004 से दी जायेगी)

हवलदार यथीन्द्र दास पी वी (सं. 13950546एम अब जेसी-694744वाई), 10 मई 2004

हवलदार पदमनाभान पी वी (सं. 13950579एक्स अब जेसी-694745एफ), 08 अप्रैल 2004

हवलदार राधा कृष्ण फिल्लै आर (सं. 13950601एक्स अब जेसी-694746के), 10 अप्रैल 2004

हवलदार हवा सिंह वशिष्ठ (सं. 13950604एल अब जेसी-694747एम), 21 अप्रैल 2004

हवलदार मोहन लाल शर्मा (सं. 13950722वाई अब जेसी-694748पी), 10 अप्रैल 2004

हवलदार बीर प्रताप सिंह कुशवाह (सं. 13951024एच अब जेसी-694749एक्स), 21 मई 2004

हवलदार राजेश सिंह (सं. 13951167एच अब जेसी-694750एम), 20 अप्रैल 2004

हवलदार जे देविन्दरन (सं. 13951450डब्ल्यू अब जेसी-694699एक्स), 26 अप्रैल 2004

हवलदार सलीम कुमार बी (सं. 13951473एक्स अब जेसी-694751पी), 12 अप्रैल 2004

हवलदार चन्द्र शेखर भट्ट (सं. 13951574एल अब जेसी-694752एक्स), 06 अप्रैल 2004

हवलदार जगत नारायण (सं. 13951614पी अब जेसी-694753ए), 01 अप्रैल 2004

हवलदार पाटिल सम्पतराव भीमराव (सं. 13951874एम अब जेसी-694754एच), 15 अप्रैल 2004

हवलदार राम सिंह मनराल (सं. 13951890के अब जेसी-694755एल), 22 अप्रैल 2004

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2004 से दी जायेगी)

हवलदार ओम प्रकाश सांगवान (सं. 13948558एच अब जेसी-694756एन), 04 जून 2004

हवलदार एस श्रीनिवासा रेड्डी (सं. 13951990पी अब जेसी-694757डब्ल्यू), 26 मार्च 2004

हवलदार दिनेश प्रसाद (सं. 13952046एन अब जेसी-694758वाई), 24 मई 2004

हवलदार राजेन्द्र प्रसाद (सं. 13952082वाई अब जेसी-694700एफ), 27 मई 2004

हवलदार कपिल किशोर मिश्रा (सं. 13952142एच अब जेसी-694759एफ), 15 मई 2004

हवलदार चन्द्रमनी सिंह (सं. 13952212डब्ल्यू अब जेसी-694760डब्ल्यू), 22 मई 2004

हवलदार सैय्यद नासिर हुसैन (सं. 13952229के अब जेसी-694701के), 25 मई 2004

हवलदार श्री कृशन पन्डित (सं. 13952230वाई अब जेसी-694761वाई), 01 जून 2004

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 मई 2004 से दी जायेगी)

हवलदार राम नरेश सिंह (सं. 13952219ए अब जेसी-694702एम), 05 जुलाई 2004

हवलदार बृज बिहारी यादव (सं. 13952260डब्ल्यू अब जेसी-694800एम), 06 जुलाई 2004

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जून 2004 से दी जायेगी)

हवलदार जीवअत बन्धन सिंह (सं. 13950609के अब जेसी-694801पी), 19 जुलाई 2004

(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जुलाई 2004 से दी जायेगी)

राम चन्द्र रतुड़ी
अवर सचिव

सं. 09, दिनांक 8 दिसम्बर 2004--राष्ट्रपति सहर्ष, निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :-

नियमित सेना

इन्फैन्ट्री

राजपूताना राईफल्स

नायब सूबेदार (धर्म गुरु) के रैंक में

इकबाल अली खान (जेसी-469504एम), 20 मार्च 2004

जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फैन्ट्री

नायब सूबेदार (आर टी) की पदोन्नति के लिये

रिक्रूट (आर टी) अजय कुमार मिश्रा (सं. 593101ए अब जेसी-593101ए), 10 जनवरी 2004

सिगनल मैन राज कुमार मिश्रा (सं. 15663109वाई अब जेसी-593128वाई), 20 मार्च 2004

रिक्रूट (आर टी) सिकन्दर अली खान (सं. 593102एच अब जेसी-593102एच), 20 मार्च 2004

रिक्रूट (आर टी) मौहम्मद इशाक खान (सं. 593103एल अब जेसी-593103एल), 20 मार्च 2004

विशेष सूची

राजपूत रेजिमेन्ट

नायब सूबेदार (धर्म शिक्षक) के रूप में

राम राजा भार्गव (जेसी-479352के), 19 मार्च 2004

शान्ति भूषन त्रिपाठी (जेसी-479353एम), 19 मार्च 2004

सिख रेजीमेन्ट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार भगवन्त सिंह (सं. 3384784डब्ल्यू अब जेसी-499353एन), 28 फरवरी 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2003)

हवलदार रजिन्दर सिंह (सं. 3380486एच अब जेसी-499354डब्ल्यू), 20 मार्च 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 14 जनवरी 2004)

हवलदार हरपाल सिंह (सं. 3386194डब्ल्यू अब जेसी-499355वाई), 11 अप्रैल 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 14 जनवरी 2004)

हवलदार निर्देश सिंह (सं. 3385530एल अब जेसी-499356एफ), 20 मार्च 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 14 जनवरी 2004)

हवलदार हुकम सिंह (सं. 3382255एल अब जेसी-499357के), 20 मार्च 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 14 जनवरी 2004)

हवलदार बलजिन्दर सिंह (सं. 3386437एफ अब जेसी-499358एम), 13 अप्रैल 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 14 जनवरी 2004)

हवलदार गुरचेत सिंह (सं. 3385825एफ अब जेसी-499359पी), 15 फरवरी 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2004)

हवलदार कुलजीत सिंह (सं. 3386221पी अब जेसी-499360के), 11 अप्रैल 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 23 फरवरी 2004)

हवलदार जसबीर सिंह (सं. 3381410पी अब जेसी-499361एम), 23 मार्च 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2004)

हवलदार सुखविन्दर सिंह (सं. 3382450एच अब जेसी-499362पी), 20 मार्च 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2004)

हवलदार अमरजीत सिंह (सं. 3385995एल अब जेसी-499363एक्स), 01 मार्च 2004

हवलदार अमरीक सिंह (सं. 3386497एल अब जेसी-499364ए), 13 अप्रैल 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2004)

हवलदार सुखमिन्दर सिंह (सं. 3386576ए अब जेसी-499365एच), 13 अप्रैल 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2004)

हवलदार शमशेर सिंह (सं. 3387286पी अब जेसी-499366एल),
13 अप्रैल 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
06 मार्च 2004)

हवलदार निर्मल सिंह (सं. 3386123पी अब जेसी-499367एन),
11 अप्रैल 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में पद पर वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2004)

हवलदार जगतार सिंह (सं. 3382994एक्स अब जेसी-499368डब्ल्यू),
01 अप्रैल 2004

हवलदार मेवा सिंह (सं. 3381863ए अब जेसी-499369वाई),
19 अप्रैल 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में पद पर वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2004)

हवलदार कश्मीर सिंह (सं. 3387368एक्स अब जेसी-499370एन),
13 अप्रैल 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 अप्रैल 2004)

नायब सूबेदार धर्म शिक्षक के रैंक में

नायक झाइवर (एम टी) कुलदीप सिंह (सं. 15117505एन अब
जेसी-499433एल), 17 जुलाई 2004

नायक सुरिन्दर सिंह (सं. 15120113एल अब जेसी-499434एन), 17
जुलाई 2004

लांस नायक हरजीत सिंह (सं. 3396316एच अब जेसी-499435डब्ल्यू),
17 जुलाई 2004

लांस नायक ड्राफ्ट्समैन सुखविन्दर सिंह (सं. 1489580डब्ल्यू अब
जेसी-499344एम), 20 मार्च 2004

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार संतोख सिंह (सं. 3385407एम अब जेसी-499345पी),
20 मार्च 2004 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जनवरी 2004)

हवलदार बलबीर सिंह (सं. 3381071ए अब जेसी-499346एक्स),
05 मार्च 2004 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 मार्च 2004)

हवलदार कुलविन्दर सिंह (सं. 3381263एक्स अब जेसी-499347ए),
10 मार्च 2004 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 मार्च 2004)

हवलदार सर्वजीत सिंह (सं. 3384878एन अब जेसी-499348एच),
01 मार्च 2004

हवलदार हरदेव सिंह (सं. 3385595वाई अब जेसी-499349एल), 01
मार्च 2004

हवलदार बलविन्दर सिंह (सं. 3385780एम अब जेसी-499350ए),
01 मार्च 2004

नायब सूबेदार क्लर्क के रैंक में

हवलदार क्लर्क अरिन्दम नन्दी (सं. 3383932के अब जेसी-
499351एच), 01 अप्रैल 2004

जाट रेजिमेन्ट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार रतन सिंह (सं. 3178028के अब जेसी-489462एम),
01 मार्च 2004

हवलदार बलवान सिंह (सं. 3174152एन अब जेसी-489463पी),
01 मार्च 2004

नायब सूबेदार (धर्म शिक्षक) के रैंक में

वेद व्रत तिवारी (जेसी-489477पी), 17 जुलाई 2004

1 जी आर

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार झमान सिंह थापा (सं. 5042413ए अब जेसी-602512एच),
21 अगस्त 2003

(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 25 जुलाई 2003)

कम्पनी क्वार्टर मास्टर हवलदार लुक बहादुर आले (सं. 5043396एक्स
अब जेसी-602515डब्ल्यू), 16 सितम्बर 2003

(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 11 अगस्त 2003)

हवलदार भुम बहादुर थापा (सं. 5042861एम अब जेसी-602539ए),
01 दिसम्बर 2003

(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 अगस्त 2003)

हवलदार सत बहादुर गुरुंग (सं. 5042427ए अब जेसी-602540पी),
01 जनवरी 2004

हवलदार नगेन्द्र मल्ल (सं. 5043585एफ अब जेसी-602541एक्स),
07 फरवरी 2004

(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 फरवरी 2004)

कम्पनी हवलदार मेजर गणेश प्रसाद गुरुंग (सं. 5043070एफ अब
जेसी-602542ए), 01 फरवरी 2004

हवलदार गौतम कुमार गुरुंग (सं. 5043216के अब जेसी-
602543एच), 12 फरवरी 2004

(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 फरवरी 2004)

कम्पनी क्वार्टर मास्टर हवलदार डेग बहादुर थापा (सं. 5043062एच
अब जेसी-602544एल), 01 फरवरी 2004

कम्पनी हवलदार मेजर चोक बहादुर गुरुंग (सं. 5043283पी अब जेसी-602545एन), 26 फरवरी 2004

(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 11 फरवरी 2004)

हवलदार शेर बहादुर थापा (सं. 5042741एन अब जेसी-602546डब्ल्यू), 23 मार्च 2004

(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 जनवरी 2004)

हवलदार अमृत बहादुर थापा (सं. 5042814पी अब जेसी-602547वाई), 25 मार्च 2004

(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 17 जनवरी 2004)

हवलदार पदम बहादुर राना (सं. 5043324एम अब जेसी-602548एफ), 20 मार्च 2004

(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 फरवरी 2004)

महार रेजिमेन्ट

नायब सूबेदार के रैंक में

सीएचएम खुम बहादुर थापा (सं. 4551943एच अब जेसी-569396एच), 10 मार्च 2004@

@(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 अक्टूबर 2003)

हवलदार दिनेश कुमार (सं. 4560319एल अब जेसी-569397एल), 28 जनवरी 2004@@

@@(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 नवम्बर 2003)

हवलदार हरगुन सिंह (सं. 2982195एच अब जेसी-569398एन), 19 दिसम्बर 2003@@@

@@@ (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 नवम्बर 2003)

सीएचएम ऋषि पाल (सं. 4551171डब्ल्यू अब जेसी-569399डब्ल्यू), 09 फरवरी 2004#

#(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 दिसम्बर 2003)

हवलदार रमेश चंद्र (सं. 4553410वाई अब जेसी-569400ए), 12 मार्च 2004##

##(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2004)

सीएचएम तरसेम लाल (सं. 4554306एक्स अब जेसी-569401एच), 09 मार्च 2004###

###(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 19 जनवरी 2004)

सीक्यूएमएच मनमोहन सिंह (सं. 4550492एफ अब जेसी-569402एल), 25 फरवरी 2004\$

\$(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2004)

सीक्यूएमएच चरण दास (सं. 4549324डब्ल्यू अब जेसी-569403एन), 23 फरवरी 2004\$\$

\$\$ (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2004)

हवलदार तीरथ सिंह (सं. 4550696एन अब जेसी-569404डब्ल्यू), 17 मार्च 2004\$\$\$

\$\$\$ (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2004)

हवलदार बलबीर सिंह (सं. 4557457एफ अब जेसी-569405वाई), 01 फरवरी 2004

हवलदार निक्का राम (सं. 4556618एम अब जेसी-569406एफ), 07 मार्च 2004*

*(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2004)

सीएचएम रणबीर सिंह (सं. 4550213एल अब जेसी-569407के), 15 मार्च 2004**

** (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 09 फरवरी 2004)

हवलदार लिपिक जयबीर सिंह (सं. 4552710एन अब जेसी-569366एल), 03 फरवरी 2004@

@ (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2004)

सीएचएम बन्सोडे महेंद्र नारायण (सं. 4550829वाई अब जेसी-569384एन), 15 दिसम्बर 2003@

@ (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 अक्टूबर 2003)

हवलदार धोंडीराम रामचन्द्र बन्सोडे (सं. 4554688एम अब जेसी-569385डब्ल्यू), 27 जनवरी 2004@@

@@ (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 07 अक्टूबर 2003)

हवलदार जोशेफ खेस (सं. 4552059डब्ल्यू अब जेसी-569386वाई), 08 जनवरी 2004@@@

@@@ (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 15 अक्टूबर 2003)

हवलदार मानिक रतन कर (सं. 4551877एफ अब जेसी-569387एफ), 12 दिसम्बर 2003#

#(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 नवम्बर 2003)

हवलदार जगदीश सिंह नयाल (सं. 4550304पी अब जेसी-569388के), 17 नवम्बर 2003##

##(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 नवम्बर 2003)

सीक्यूएमएच दतबल सिंह वर्मा (सं. 4550383पी अब जेसी-569389एम), 01 जनवरी 2004###

###(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 दिसम्बर 2003)

हवलदार दर्शन सिंह (सं. 4557274एल अब जेसी-569390एफ), 20 जनवरी 2004@

@ (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 09 दिसम्बर 2003)

हवलदार कुमार सपकाल दयानंद चन्दू (सं. 4558049एच अब जेसी-569391के), 16 जनवरी 2004@@

@@ (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2004)

हवलदार घमन्डी (सं. 4550491वाई अब जेसी-569392एम), 01 जनवरी 2004

हवलदार छोटे सिंह (सं. 4550361एन अब जेसी-569393पी), 07 फरवरी 2004@@@

@@@ (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2004)

डोगरा रजिमेंट

नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में

हवलदार लिपिक मोहन सिंह रावत (सं. 3983511वाई अब जेसी-519832वाई), 01 मार्च 2004

हवलदार लिपिक हंस राज संवियाल (सं. 3983526एफ अब जेसी-519833एफ), 01 मार्च 2004

हवलदार लिपिक रणजीत सिंह (सं. 3983527के अब जेसी-519834के), 01 मार्च 2004

हवलदार लिपिक जगदीश चन्द पटियाल (सं. 3979427एफ अब जेसी-519835एम), 01 मार्च 2004

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार सुभाष चन्द (सं. 3981792एफ अब जेसी-519836पी), 14 मार्च 2004

हवलदार मदन लाल (सं. 3981771एल अब जेसी-519837एक्स), 26 मार्च 2004

हवलदार कर्म सिंह (सं. 3981250वाई अब जेसी-519825एच), 02 दिसम्बर 2003

हवलदार कल्याण चन्द (सं. 3981218एच अब जेसी-519826एल), 21 दिसम्बर 2003

हवलदार जय पाल (सं. 3981225वाई अब जेसी-519827एन), 01 जनवरी 2004

हवलदार सुरजन सिंह (सं. 3981232पी अब जेसी-519828डब्ल्यू), 01 जनवरी 2004

हवलदार ओंकार सिंह (सं. 3979355एक्स अब जेसी-519829वाई), 14 जनवरी 2004

हवलदार रूप लाल (सं. 3981058एन अब जेसी-519830एन), 25 मार्च 2004+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 14 जनवरी 2004 से)

हवलदार रमेश चन्द (सं. 3979371ए अब जेसी-519831डब्ल्यू), 24 मार्च 2004

पैराशूट रेजिमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार नाथू सिंह (सं. 13615333एफ अब जेसी-412838एच), 01 नवम्बर 2003

हवलदार भूप सिंह (सं. 13615047ए अब जेसी-412839एल), 01 दिसम्बर 2003

हवलदार नुमल चन्द्रा गोगोय (सं. 13616203एल अब जेसी-412840ए), 07 जुलाई 2003

हवलदार बलकार सिंह (सं. 2474609एम अब जेसी-412841एच), 22 अक्टूबर 2003

हवलदार युद्धवीर सिंह राणा (सं. 13613490पी अब जेसी-412842एल), 13 फरवरी 2004xx

xx(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2003)

हवलदार मनोहर सिंह (सं. 13613493एच अब जेसी-412843एन), 16 फरवरी 2004xx

xx(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2003)

हवलदार देवी प्रसाद (सं. 13613580डब्ल्यू अब जेसी-412844डब्ल्यू), 16 फरवरी 2004xx

xx(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2003)

हवलदार बिरेन गोगोय (सं. 13613633के अब जेसी-412845वाई), 13 फरवरी 2004xx

xx(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2003)

हवलदार फूल सिंह (सं. 13614372एन अब जेसी-412846एफ), 01 सितम्बर 2003

हवलदार गगन सिंह (सं. 13614937एम अब जेसी-412847के), 01 दिसम्बर 2003

हवलदार केदारी सिंह (सं. 13614975के अब जेसी-412848एम), 01 अक्टूबर 2003

हवलदार चित्रा सिंह, सेना मेडल (सं. 4068741पी अब जेसी-412849पी), 01 दिसम्बर 2003

हवलदार नन्द लाल झाझरिया (सं. 13616724वाई अब जेसी-412850के), 01 दिसम्बर 2003

हवलदार छोटू राम (सं. 2784678पी अब जेसी-412851एम), 01 जनवरी 2004

हवलदार मोहन सिंह (सं. 13614362के अब जेसी-412853एक्स), 15 मार्च 2004xx

xx(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2003)

हवलदार खेम राज (सं. 13748418एम अब जेसी-412856एल), 01 मार्च 2004

नायब सूबेदार (लिपिक)

हवलदार लिपिक गोपीनाथन पिल्ले (सं. 13612454एक्स अब जेसी-412852पी), 01 मार्च 2004

हवलदार लिपिक सत्यपाल सिंह फोगट (सं. 13614437डब्ल्यू अब जेसी-412854ए), 01 मार्च 2004

हवलदार लिपिक पूरन सिंह गैलाकोटी (सं. 13615126पी अब जेसी-412855एच), 01 अप्रैल 2004

असम रेजिमेंट

नायब सूबेदार के पद में

हवलदार बबुल चंद्र डेका (सं. 4352676पी अब जेसी-548962के), 20 मार्च 2004/02 जनवरी 2004

हवलदार कालासेना राजकुमार (सं. 4354529एल अब जेसी-548964पी), 20 मार्च 2004/02 जनवरी 2004

हवलदार टी बसन्ता सिंह (सं. 4357148पी अब जेसी-548966ए), 20 मार्च 2004/01 फरवरी 2004

हवलदार कुम्बेश्वर लुखुराखान (सं. 4353075डब्ल्यू अब जेसी-548958एफ), 25 मार्च 2004/01 अक्टूबर 2003

हवलदार पुतुल चंद्र दास (सं. 4354236ए अब जेसी-548952ए), 01 मार्च 2004

हवलदार बमचा सिंह (सं. 4356355पी अब जेसी-548953एच), 01 मार्च 2004

हवलदार दल बहादुर तमांग (सं. 4357174डब्ल्यू अब जेसी-548955एन), 01 अप्रैल 2004

हवलदार एम रणजित सिंह (सं. 4426489एन अब जेसी-548954एल), 01 अप्रैल 2004

हवलदार थेनखोसई (सं. 4356518एक्स अब जेसी-548957वाई), 05 अप्रैल 2004/01 अप्रैल 2004

हवलदार टी एच बचा सिंह (सं. 4353151एल अब जेसी-548967एच), 28 मार्च 2004

हवलदार काइखानलियान सिमते (सं. 4353437एम अब जेसी-548968एल), 28 मार्च 2004/01 जनवरी 2004

हवलदार कमल सिंह बारदोलोई (सं. 4353327एक्स अब जेसी-548969एन), 28 मार्च 2004/05 फरवरी 2004

हवलदार हरका बहादुर दर्जी (सं. 4352702एल अब जेसी-548939डब्ल्यू), 17 मार्च 2004/01 अक्टूबर 2003

हवलदार चिनो लोथा (सं. 4353496वाई अब जेसी-548948एक्स), 04 फरवरी 2004

हवलदार लालरामसंग (सं. 4357772एन अब जेसी-548920एक्स), 11 जनवरी 2004

हवलदार हिरनमय सिन्हा (सं. 4355192ए अब जेसी-548921ए), 11 जनवरी 2004/01 अक्टूबर 2003

हवलदार एच आर रिंगसेल अनाल (सं. 4355883के अब जेसी-548922एच), 11 जनवरी 2004/01 अक्टूबर 2003

हवलदार ओम बहादुर सुनार (सं. 5448186पी अब जेसी-548923एल), 30 दिसम्बर 2003/01 दिसम्बर 2003

हवलदार बाबातोन सिन्हा (सं. 4353092डब्ल्यू अब जेसी-548945के), 01 जनवरी 2004

हवलदार निकुन्जा सिंहा (सं. 4353093वाई अब जेसी-548950पी), 01 जनवरी 2004

हवलदार पुहेश्वर बारदोलाई (सं. 4353126वाई अब जेसी-548946एम), 03 मार्च 2004/01 मार्च 2004

हवलदार प्रदिप कुमार सिंहा (सं. 4353213एम अब जेसी-548947पी), 01 अप्रैल 2004

हवलदार लाइशराम सरत चंद सिंह (सं. 4353584पी अब जेसी-548974वाई), 05 अप्रैल 2004/01 दिसम्बर 2003

हवलदार देबेन फदंगरी (सं. 4353680के अब जेसी-548975एफ), 05 अप्रैल 2004/01 दिसम्बर 2003

हवलदार बिनोद मुसाहारि (सं. 4353806वाई अब जेसी-548976के), 05 अप्रैल 2004/02 दिसम्बर 2003

हवलदार एम डी गियासुद्दिन (सं. 4352734एन अब जेसी-548978पी), 05 अप्रैल 2004/01 जनवरी 2004

हवलदार लाल बहादुर गुरुंग (सं. 4352710एक्स अब जेसी-548979एक्स), 05 अप्रैल 2004/18 जनवरी 2004

हवलदार एच आर रामकातिंग (सं. 4353954के अब जेसी-548949ए), 01 अप्रैल 2004

हवलदार खाइचिनपाव झो (सं. 4352461डब्ल्यू अब जेसी-548977एम), 16 अप्रैल 2004/01 जनवरी 2004

हवलदार हरा कांता सईकिया (सं. 4355780एन अब जेसी-548956डब्ल्यू), 20 अप्रैल 2004/01 अप्रैल 2004

हवलदार खाइखोपाव (सं. 4354982एच अब जेसी-548930एफ), 24 अप्रैल 2004/01 फरवरी 2004

नायब सूबेदार लिपिक के पद में

हवलदार लिपिक गिरवार प्रसाद (सं. 4357832एक्स अब जेसी-548971एल), 01 अप्रैल 2004

हवलदार लिपिक श्याम बाबु (सं. 4357828पी अब जेसी-548973डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2004

हवलदार लिपिक राम पाल सिंह (सं. 4357831पी अब जेसी-548972एन), 01 अप्रैल 2004

हवलदार लिपिक जितेन चंद्र सईकिया (सं. 4353280एक्स अब जेसी-548990डब्ल्यू), 01 मई 2004

गढ़वाल राइफल
नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार बिरेन्द्र कुमार (सं. 4062132पी अब जेसी-529542पी),
05 जनवरी 2004

हवलदार कुन्दन सिंह (सं. 4063241एन अब जेसी-529543एक्स),
05 जनवरी 2004

हवलदार अनिल खन्डुड़ी (सं. 4062301एल अब जेसी-529544ए),
01 मार्च 2004*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2004 से दी जाती है)

हवलदार ब्रिजपाल सिंह (सं. 4064396एम अब जेसी-529545एच),
01 मार्च 2004*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2004 से दी जाती है)

हवलदार धर्मपाल सिंह (सं. 4061263एम अब जेसी-529546एल),
01 मार्च 2004*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2004 से दी जाती है)

हवलदार ताजबुर सिंह (सं. 4062741वाई अब जेसी-529547एन),
01 फरवरी 2004

हवलदार सुरेन्द्र सिंह (सं. 4061787पी अब जेसी-529548डब्ल्यू),
01 फरवरी 2004

हवलदार गोविन्द राम (सं. 4061937ए अब जेसी-529549वाई),
01 फरवरी 2004

हवलदार तेन सिंह नेमी (सं. 4065217डब्ल्यू अब जेसी-529550एन),
01 फरवरी 2004

हवलदार माया सिंह (सं. 4065971एक्स अब जेसी-529551डब्ल्यू),
01 फरवरी 2004

हवलदार मथुरा प्रसाद (सं. 4066195पी अब जेसी-529552वाई),
01 फरवरी 2004

हवलदार तुला राम (सं. 4065530एफ अब जेसी-529553एफ),
01 फरवरी 2004

हवलदार प्रेम सिंह (सं. 4062210एफ अब जेसी-529554के),
01 मार्च 2004*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 05 फरवरी 2004 से दी जाती है)

हवलदार ठाकुर सिंह (सं. 4062209एम अब जेसी-529555एम),
01 मार्च 2004

हवलदार सरिता नन्द (सं. 4062644एफ अब जेसी-529514एच),
29 जनवरी 2004*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2003 से दी जाती है)

हवलदार उमैद सिंह गवत (सं. 4062709के अब जेसी-529515एल),
16 फरवरी 2004*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 अगस्त 2003 से दी जाती है)

हवलदार दान सिंह (सं. 4067011एक्स अब जेसी-529516एन),
01 अक्टूबर 2003

हवलदार राजेन्द्र सिंह (सं. 4062817एन अब जेसी-529517डब्ल्यू),
25 अक्टूबर 2003

हवलदार कलम सिंह (सं. 4061559एम अब जेसी-529519एफ),
12 नवम्बर 2003

हवलदार मोहन सिंह (सं. 4060954एन अब जेसी-529521वाई),
01 दिसम्बर 2003

हवलदार कृत राम (सं. 13613509एम अब जेसी-529522एफ),
01 दिसम्बर 2003

हवलदार बाग सिंह (सं. 4064847के अब जेसी-529523के),
01 दिसम्बर 2003

हवलदार कुंवर सिंह, वीर चक्र (सं. 4068303एम अब जेसी-
529524एम), 01 दिसम्बर 2003

हवलदार विजय कुमार (सं. 4062880एच अब जेसी-529525पी),
13 जनवरी 2004*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 दिसम्बर 2003 से दी जाती है)

हवलदार बादर सिंह (सं. 4064393एफ अब जेसी-529526एक्स),
15 फरवरी 2004*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
12 दिसम्बर 2003 से दी जाती है)

हवलदार शिशुपाल सिंह (सं. 4061578एक्स अब जेसी-529527ए),
01 जनवरी 2004

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार .(लिपिक) देवेन्द्र सिंह (सं. 4061420पी अब
जेसी-529518वाई), 01 नवम्बर 2003

हवलदार (लिपिक) हरीश प्रकाश (सं. 4061487एन अब
जेसी-529520डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2003

9 जी आर

नायब सूबेदार के रैंक में

रैंक, नाम, आर्मी/जेसी सं., पदोन्नति की तिथि

हवलदार लोव बिक्रम खान (सं. 5845417एच अब
जेसी-629641एम), 01 मार्च 2004

हवलदार महेन्द्र बहादुर केसी (सं. 5845492एम अब जेसी-629642पी),
01 मार्च 2004

हवलदार ब्राम बहादुर कार्की (सं. 5845613एच अब जेसी-
629643एक्स), 12 मार्च 2004/01 मार्च 2004*

हवलदार मन बहादुर केसी (सं. 5845491के अब जेसी-629644ए), 04 मार्च 2004/01 मार्च 2004×

हवलदार राजेन्द्र बहादुर रावत (सं. 5846078ए अब जेसी-629645एच), 04 मार्च 2004/01 मार्च 2004×

हवलदार बेत बहादुर रोह्याया (सं. 5846337एक्स अब जेसी-629635वाई), 19 फरवरी 2004/01 फरवरी 2004×

हवलदार चन्द्र बहादुर क्षेत्री (सं. 5846622डब्ल्यू अब जेसी-629636एफ), 10 फरवरी 2004/01 फरवरी 2004×

हवलदार देवेन्द्र ब्राम मल्ल (सं. 5846982एम अब जेसी-629637के), 11 फरवरी 2004/01 फरवरी 2004×

हवलदार परमा नन्द खत्री (सं. 5845452एल अब जेसी-629638एम), 21 फरवरी 2004/01 फरवरी 2004×

हवलदार राम बहादुर खडका (सं. 5845316पी अब जेसी-629639पी), 10 मार्च 2004/01 मार्च 2004×

हवलदार बाल बहादुर खत्री (सं. 5845306एल अब जेसी-629640के), 01 मार्च 2004

हवलदार राजु क्षेत्री (सं. 5845264ए अब जेसी-629629एल), 21 फरवरी 2004/01 दिसम्बर 2003×

हवलदार कृष्णा बहादुर क्षेत्री (सं. 5845218पी अब जेसी-629630ए), 08 फरवरी 2004/01 जनवरी 2004×

हवलदार राम बहादुर शाही (सं. 5845404एल अब जेसी-629631एच), 01 मार्च 2004/01 जनवरी 2004×

हवलदार इन्द्र बहादुर मल्ला (सं. 5845414पी अब जेसी-629632एल), 21 फरवरी 2004/01 जनवरी 2004×

हवलदार हिम बहादुर थापा (सं. 5845227एच अब जेसी-629633एन), 10 फरवरी 2004/01 फरवरी 2004×

हवलदार दया बहादुर केसी (सं. 5845598वाई अब जेसी-629634डब्ल्यू), 10 फरवरी 2004/01 फरवरी 2004×

हवलदार हरका बहादुर भंडारी (सं. 5845135के अब जेसी-629623के), 10 जनवरी 2004/01 जनवरी 2004×

हवलदार दन बहादुर क्षेत्री (सं. 5845159पी अब जेसी-629624एम), 31 जनवरी 2004/01 जनवरी 2004×

हवलदार पनु मल्ला (सं. 5845202के अब जेसी-629625पी), 10 जनवरी 2004/01 जनवरी 2004×

हवलदार पदम बहादुर खत्री (सं. 5845894के अब जेसी-629626एक्स), 10 जनवरी 2004/01 जनवरी 2004×

हवलदार कमल बहादुर खडका (सं. 5846508वाई अब जेसी-629627ए), 01 जनवरी 2004

हवलदार खीम बहादुर मल्ला (सं. 5844917एन अब जेसी-629628एच), 08 फरवरी 2004/01 दिसम्बर 2003×

हवलदार खुम बहादुर खत्री (सं. 5846501पी अब जेसी-629617डब्ल्यू), 26 दिसम्बर 2003/01 दिसम्बर 2003×

हवलदार लाल चन्द्र खत्री (सं. 5845281के अब जेसी-629618वाई), 13 जनवरी 2004/01 दिसम्बर 2003×

हवलदार केसर बहादुर क्षेत्री (सं. 5845363एम अब जेसी-629619एफ), 31 दिसम्बर 2003/01 दिसम्बर 2003×

हवलदार खेम बहादुर केसी (सं. 5845991एफ अब जेसी-629620डब्ल्यू), 08 जनवरी 2004/01 दिसम्बर 2003×

हवलदार एक बहादुर थापा (सं. 5845591पी अब जेसी-629622एफ), 01 जनवरी 2004

हवलदार कुल बहादुर क्षेत्री (सं. 5845562ए अब जेसी-629621वाई), 01 जनवरी 2004

हवलदार/क्लर्क सुरेश कुमार क्षेत्री (सं. 5845684के अब जेसी-629611पी), 24 दिसम्बर 2003/01 नवम्बर 2003×

हवलदार/क्लर्क रूद्र बहादुर खत्री (सं. 5845810एच अब जेसी-629612एक्स), 06 जनवरी 2004/01 नवम्बर 2003×

हवलदार दिल बहादुर बसनेट (सं. 5845475एम अब जेसी-629613ए), 26 दिसम्बर 2003/01 नवम्बर 2003×

हवलदार कृष्णा बहादुर मल्ला (सं. 5845412के अब जेसी-629614एच), 15 दिसम्बर 2003/01 नवम्बर 2003×

हवलदार जगत बहादुर महत (सं. 5845694एन अब जेसी-629615एल), 13 जनवरी 2004/01 नवम्बर 2003×

हवलदार मोहन बहादुर केसी (सं. 5846418एक्स अब जेसी-629616एन), 01 जनवरी 2004/01 दिसम्बर 2003×

हवलदार राम बहादुर क्षेत्री (सं. 5845203एफ अब जेसी-629605एफ), 13 नवम्बर 2003/01 अक्टूबर 2003×

हवलदार सोम बहादुर क्षेत्री (सं. 5845289डब्ल्यू अब जेसी-629606के), 14 नवम्बर 2003/01 अक्टूबर 2003×

हवलदार चोला कान्त क्षेत्री (सं. 5845073पी अब जेसी-629607एम), 01 अक्टूबर 2003

हवलदार गोपाल थापा (सं. 5845375एफ अब जेसी-629608पी), 08 नवम्बर 2003/01 अक्टूबर 2003×

हवलदार चिन बहादुर खत्री (सं. 5847077के अब जेसी-629609एक्स), 08 नवम्बर 2003/01 नवम्बर 2003×

हवलदार लक्ष्मी बहादुर क्षेत्री (सं. 5845295के अब जेसी-629610एम), 26 दिसम्बर 2003/01 अक्टूबर 2003×

हवलदार हुमैन्द्र सिंह रायमाझी (सं. 5845137पी अब जेसी-629599वाई), 20 नवम्बर 2003/01 सितम्बर 2003×

हवलदार डोल बहादुर बेसनेट (सं. 5845415एक्स अब जेसी-629600एच), 04 अक्टूबर 2003/01 सितम्बर 2003×

हवलदार/कर्लक हरगोविन्द सिंह (सं. 5846287एक्स अब जेसी-629601एल), 06 नवम्बर 2003/01 अक्टूबर 2003×

हवलदार हरका बहादुर क्षेत्री (सं. 5845148एफ अब जेसी-629602एन), 24 नवम्बर 2003/01 अक्टूबर 2003×

हवलदार कर्ण बहादुर रोका (सं. 5845394एम अब जेसी-629603डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2003/01 अक्टूबर 2003×

हवलदार सुनील थापा (सं. 5846422ए अब जेसी-629604वाई), 13 नवम्बर 2003/01 अक्टूबर 2003×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना ज्येष्ठता दी जाएगी)

3 जी आर

नायब सूबेदार के रैंक में —

हवलदार संत बहादुर थापा (सं. 5245027एच अब जेसी-607510एफ), 06 नवम्बर 2003/01 मई 2003×

हवलदार शमशेर बहादुर थापा (सं. 5244433डब्ल्यू अब जेसी-607511के), 31 दिसम्बर 2003/25 सितम्बर 2003×

हवलदार जगत बहादुर पुन (सं. 5244563एक्स अब जेसी-607512एम) 31 दिसम्बर 2003/25 सितम्बर 2003×

हवलदार मन बहादुर थापा मगर (सं. 5244577वाई अब जेसी-607513पी), 31 दिसम्बर 2003/25 सितम्बर 2003×

हवलदार रुद्र बहादुर गुरूंग (सं. 5244447डब्ल्यू अब जेसी-607514एक्स), 17 अक्टूबर 2003/01 अक्टूबर 2003×

हवलदार बिक्रम शाही (सं. 5244254डब्ल्यू अब जेसी-607515ए), 23 दिसम्बर 2003/01 अक्टूबर 2003×

हवलदार प्रसाद थापा (सं. 5244600एफ अब जेसी-607538एफ), 13 फरवरी 2004/01 फरवरी 2004×

हवलदार कमल सिंह (सं. 5244756वाई अब जेसी-607539के), 10 मार्च 2004/01 फरवरी 2004×

हवलदार राज कुमार उदास (सं. 5246248एफ अब जेसी-607540एक्स), 02 फरवरी 2004/23 फरवरी 2004×

हवलदार भीम बहादुर थापा (सं. 5244427एच अब जेसी-607541ए), 01 मार्च 2004

हवलदार/कर्लक मोहम्मद अहसन (सं. 5245016डब्ल्यू अब जेसी-607542एच), 01 अप्रैल 2004

हवलदार प्रेम बहादुर श्रेष्ठ (सं. 5245281एम अब जेसी-607533एच), 13 मार्च 2004/01 अक्टूबर 2003×

हवलदार खीम बहादुर भुजेल (सं. 5244578एफ अब जेसी-607534एल), 01 जनवरी 2004

हवलदार नारायण तमंग (सं. 5244570एफ अब जेसी-607535एन), 01 जनवरी 2004

हवलदार तर्क बहादुर रोका (सं. 5244630वाई अब जेसी-607536डब्ल्यू), 17 फरवरी 2004/01 जनवरी 2004×

हवलदार खड्क बहादुर थापा (सं. 5245443एम अब जेसी-607537वाई), 21 मार्च 2004/01 जनवरी 2004×

हवलदार राजेन्द्र बहादुर थापा (सं. 5244916एन अब जेसी-607528एक्स), 10 दिसम्बर 2003/01 नवम्बर 2003×

हवलदार बोम बहादुर गुरूंग (सं. 5244506एक्स अब जेसी-607529ए), 01 दिसम्बर 2003

हवलदार शेर बहादुर गुरूंग (सं. 5244520के अब जेसी-607530पी), 23 दिसम्बर 2003/01 दिसम्बर 2003×

हवलदार नरेन्द्र प्रकाश मल्ला (सं. 5244664एम अब जेसी-607531एक्स), 05 फरवरी 2004/01 अक्टूबर 2003×

हवलदार हरका बहादुर गुरूंग (सं. 5244651पी अब जेसी-607532ए), 05 फरवरी 2004/01 दिसम्बर 2003×

हवलदार कृष्णा प्रसाद गुरूंग (सं. 5245113एन अब जेसी-607522डब्ल्यू), 06 नवम्बर 2003/01 अक्टूबर 2003×

हवलदार दन बहादुर पुरजा (सं. 5245260डब्ल्यू अब जेसी-607523वाई), 06 नवम्बर 2003/01 अक्टूबर 2003×

हवलदार धरविन्द्र थापा (सं. 5245279पी अब जेसी-607524एफ), 06 दिसम्बर 2003/01 अक्टूबर 2003×

हवलदार सीता राम प्रधान (सं. 5244843एम अब जेसी-607525के), 01 नवम्बर 2003/01 अक्टूबर 2003×

हवलदार कुल बहादुर राना (सं. 5244486पी अब जेसी-607526एम), 01 नवम्बर 2003

हवलदार रामी राम पार्की (सं. 5244541ए अब जेसी-607527पी), 25 नवम्बर 2003/01 नवम्बर 2003×

हवलदार भीम बहादुर थापा (सं. 5244243के अब जेसी-607516एच), 25 नवम्बर 2003/01 अक्टूबर 2003×

हवलदार दल बहादुर थापा (सं. 5244398वाई अब जेसी-607517एल), 25 नवम्बर 2003/01 अक्टूबर 2003×

हवलदार आनंद सिंह थापा (सं. 5244438पी अब जेसी-607518एन), 25 नवम्बर 2003/01 अक्टूबर 2003×

हवलदार यम बहादुर थापा (सं. 5244468एम अब जेसी-607519डब्ल्यू), 25 नवम्बर 2003/01 अक्टूबर 2003×

हवलदार ईश्वर बहादुर शाही (सं. 5244604एक्स अब जेसी-607520एल), 05 फरवरी 2004/25 सितम्बर 2003×

हवलदार राम बहादुर थापा (सं. 5245056एक्स अब जेसी-607521एन), 06 नवम्बर 2003/01 अक्टूबर 2003×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना ज्येष्ठता दी जाएगी)

सिख लाईट इन्फैन्ट्री
नायब सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में

हवलदार तरशेम सिंह (सं. 4464172एच अब जेसी-509094एम), 14 जनवरी 2004×

×(नायब सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 22 अक्टूबर 2001 से दी जाएगी)

हवलदार चमकौर सिंह (सं. 4469379एम अब जेसी-509095पी), 13 फरवरी 2004×

×(नायब सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2003 से दी जाएगी)

हवलदार अमरजीत सिंह (सं. 4466688के अब जेसी-509096एक्स), 05 फरवरी 2004×

×(नायब सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 जुलाई 2003 से दी जाएगी)

हवलदार सुखविन्द सिंह (सं. 4467806वाई अब जेसी-509097ए), 01 सितम्बर 2003

हवलदार सरबजीत सिंह (सं. 4467507ए अब जेसी-509098एच), 01 सितम्बर 2003

हवलदार सुरत सिंह (सं. 4460957पी अब जेसी-509099एल), 05 अक्टूबर 2003

हवलदार बलविन्द सिंह (सं. 4461468डब्ल्यू अब जेसी-509100पी), 05 नवम्बर 2003

हवलदार निर्मल सिंह (सं. 4463701एक्स अब जेसी-509101एक्स), 06 मार्च 2004×

×(नायब सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 27 नवम्बर 2003 से दी जाएगी)

हवलदार दिलबाग सिंह (सं. 4463208के अब जेसी-509102ए), 02 दिसम्बर 2003

हवलदार गोविन्द सिंह (सं. 4465473वाई अब जेसी-509104एल), 01 जनवरी 2004

हवलदार जज सिंह (सं. 4464254एल अब जेसी-509105एन), 14 जनवरी 2004

हवलदार नाजर सिंह (सं. 4466231एच अब जेसी-509107वाई), 15 मार्च 2004×

×(नायब सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2004 से दी जाएगी)

हवलदार प्रशान सिंह (सं. 4465346के अब जेसी-509108एफ), 18 फरवरी 2004

हवलदार गुरमीत सिंह (सं. 4464313एम अब जेसी-509110वाई), 06 मार्च 2004

नायब सूबेदार (क्लर्क) (जी.डी.) के रैंक में

हवलदार (क्लर्क) बछितर सिंह (सं. 4463408ए अब जेसी-509103एच), 01 जनवरी 2004

हवलदार (क्लर्क) बरिन्द्र सिंह (सं. 4470822एफ अब जेसी-509106डब्ल्यू), 01 फरवरी 2004

हवलदार सुभाष चन्द्र (सं. 4465034एन अब जेसी-509109के), 01 मार्च 2004

दिवाकर
अवर सचिव

सं. 10, दिनांक 13 दिसम्बर 2004--राष्ट्रपति सहर्ष, निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं :-

नियमित सेना
स्थायी कमीशन
(सेना चिकित्सा कोर)

कर्नल (व समकक्ष) से ब्रिगेडियर (व समकक्ष) रैंक में

ए के एस बैरारिया (एम आर-03614एन), 16 जून 2003

वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 02 अप्रैल 03 से दी जाती है।

बी बी मोहन्ती (एम आर-04612पी), 15 जनवरी 2004

वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 04 जुलाई 03 से दी जाती है।

एस चौधरी (एम आर-04616एल), 28 जुलाई 2004

वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 02 अगस्त 03 से दी जाती है।

महावीर सिंह (एम आर-03029एन), 03 अप्रैल 2004

वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 02 दिसम्बर 03 से दी जाती है।

सी एम अदया (एम आर-03562एच), 13 मई 2004

वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 04 जनवरी 04 से दी जाती है।

मेजर (व समकक्ष) से लेफ्टि कर्नल (व समकक्ष) रैंक में

कृष्ण चन्दर (एन टी आर-16490एच), 01 अक्टूबर 2003

मेजर के पद पर

अभिजित वासु (एम एस-13879एल) (एम आर-08007वाई) ए
एम सी, 28 दिसम्बर 2002

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 13 दिसम्बर 2003 में प्रकाशित, रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहाँ तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है।)

मनोज नागी (एम एस-13454एम) (एम आर-08006डब्ल्यू) ए एम सी, 01 फरवरी 2003

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 24 अप्रैल 2004 में प्रकाशित, रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है।)

भो पघिना (एम एस-13643डब्ल्यू) (एम आर-08005एन) ए एम सी, 09 अगस्त 2001

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 13 दिसम्बर 2003 में प्रकाशित, रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है।)

शिखर गौर (एम एस-13593डब्ल्यू) (एम आर-07998एल) ए एम सी, 22 जनवरी 2003

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 24 अप्रैल 2004 में प्रकाशित, रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है।)

मोनालिसा राय (एम एस-13980एल) (एम आर-08013एम) ए एम सी, 13 अप्रैल 2003

कप्तान के पद पर

(कु) रिचा जोशी (एम आर-07869एल) ए एम सी, 04 जनवरी 2004

(कु) टि. पी. शशीकला (एम आर-07849एक्स) ए एम सी, 04 जनवरी 2004

आशीष पांडे (एम आर-07842एन) ए एम सी, 04 जनवरी 2004

ललित मोहन गुप्ता (एम आर-07707ए) ए एम सी, 04 मार्च 2003

विद्या भूषण पाण्डेय (एम आर-07716एफ) ए एम सी, 04 मार्च 2003

प्रेम शंकर कुमार (एम आर-07739एच) ए एम सी, 04 मार्च 2003

(कु) कोदुरी चन्द्रिका प्रसाद (एम आर-07756एच) ए एम सी, 04 मार्च 2003

मंगल मुर्ति (एम आर-07917ए) ए एम सी, 23 फरवरी 2004

जितेन्द्र शर्मा (एम आर-07897एक्स) ए एम सी, 04 जनवरी 2004

एम श्रीवास्तवा

ब्रिगेडियर

उप महानिदेशक (कार्मिक)

सं. 11, दिनांक 14 दिसम्बर 2004--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को पदोन्नत करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

कप्तान से मेजर

आई सी नं., नाम व आरं

4682 जसवीर सिंह, इन्फैन्ट्री

54733 मनोज कुमार सरोही, ए सी

06 नवम्बर 2002

(परन्तु वेतन व भत्ते दिनांक 27 अक्टूबर 2003 से देय)

54703 जी कुमार, ए एस सी

06 नवम्बर 2002

54974 राज सिंह, ए एस सी

19 अप्रैल 2004

55516 योगेश दादु, इन्जी.

09 मई 2004

52858 राजेश रथ, ए ओ सी

52902 निखिलेश शर्मा, ए ए सी

52978 नवीन कुमार शर्मा, इंजी.

52982 तरुण उप्पल, ई एन ई

11 जून 2004

54569 करुण प्रताप सिंह, इंजी.

12 जून 2004

के एस वर्मा
संयुक्त निदेशक
एम एस-8सी

सेना शखा

सं. 12, दिनांक 13 दिसम्बर 2004--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को दिनांक 18 अगस्त 2003 से सेना चिकित्सा कोर से अल्पकालीन सेवा कमीशन से मुक्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं और थल सेना अनुदेश 74/76 यथा संशोधित के अधीन उसी दिनांक से उन्हें स्थायी कमीशन प्रदान करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

कप्तान के पद पर

शिखर गौर (एम एस-13593डब्ल्यू) (एम आर-07998एल) ए एम सी-22 जनवरी 1999 वेतन और पदोन्नति के लिए वरिष्ठता से हो जाएगी। इसमें के लिए दी गई को पूर्व वरिष्ठता भी शामिल है, जो सेवा निवृत्ति के लिए गिनी जाएगी परन्तु उपदान के लिए नहीं मानी जाएगी। (भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 25 मार्च 2000 में प्रकाशित, रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है।)

मनोज नागी (एम एस-13454एम) (एम आर-08006डब्ल्यू) ए एम सी-01 फरवरी 1999 (भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 05 फरवरी 2000 में प्रकाशित, रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है।)

राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारी को दिनांक 24 जनवरी 2004 से सेना चिकित्सा कोर से अल्पकालीन सेवा कमीशन से मुक्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं और थल सेना अनुदेश 74/76 यथा संशोधित के अधीन उसी दिनांक से उसे स्थायी कमीशन प्रदान करते हैं :--

नियमित सेना
स्थायी कमीशन
कप्तान के पद पर

भो पवित्रा (एम एस-13643डब्ल्यू) (एम आर-08005एन) ए एम सी-09 अगस्त 1999 वेतन और पदोन्नति के लिए वरिष्ठता 09 अगस्त 1997 से हो जाएगी। इसमें स्नातकोत्तर योग्यता डी एन बी (पैडिआट्रिक्स) के लिए दी गई 24 महीने की पूर्व वरिष्ठता भी शामिल है, जो सेवा निवृत्ति के लिए गिनी जाएगी परन्तु उपादान के लिए नहीं मानी जाएगी। (भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 09 मार्च 2002 में प्रकाशित, रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है।)

राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को दिनांक 21 जनवरी 2004 से सेना चिकित्सा कोर से अल्पकालीन सेवा कमीशन से मुक्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं और थल सेना अनुदेश 74/76 यथा संशोधित के अधीन उसी दिनांक से उन्हें स्थायी कमीशन प्रदान करते हैं :--

नियमित सेना
स्थायी कमीशन
कप्तान के पद पर

अभिजित वासु (एम एस-13879एल) (एम आर-08007वाई) ए एम सी-28 जून 1999 वेतन और पदोन्नति के लिए वरिष्ठता 28 दिसम्बर 1998 से हो जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए दी गई 06 महीने की पूर्व वरिष्ठता भी शामिल है, जो सेवा निवृत्ति के लिए गिनी जाएगी परन्तु उपादान के लिए नहीं मानी जाएगी। (भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक

05 जुलाई 2003 में प्रकाशित, रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है।)

मोनालिसा राय (एम एस-13980एल) (एम आर-08013एम) (ए एम सी-13 अक्टूबर 1999 वेतन और पदोन्नति के लिए वरिष्ठता 13 अप्रैल 1999 से हो जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए दी गई 06 महीने की पूर्व वरिष्ठता भी शामिल है, जो सेवा निवृत्ति के लिए गिनी जाएगी परन्तु उपादान के लिए नहीं मानी जाएगी। (भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 24 अप्रैल 2004 में प्रकाशित, रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है।)

एम. श्रीवास्तवा
ब्रिगेडियर
उप महानिदेशक (कार्मिक)

(थल सेना विभाग)

सं. 13, दिनांक 10 दिसम्बर 2004--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारी को अनिवार्य सेवा निवृत्ति की आयु प्राप्त होने पर थल सेना से निवृत्त करते हैं :--

नियमित सेना
सैनिक दन्त चिकित्सा कोर
(स्थाई कमीशन)
निवृत्ति

कर्नल फरहत उमेर (डी आर-10284एच), 30 सितम्बर 2004 (ए एन)

परमजीत सिंह
मेजर जनरल
ए डी जी डी एस

(ARMY BRANCH)

No 01, dated 08 December 2004.—The President is pleased to make the following appointment:—

REGULAR ARMY

SPECIAL LIST

THE GRENADIERS

To be Nb Sub (Religious Teacher)

Rakesh Kumar Pathak (JC-449492F), 10 Jan 2004.

DIWAKAR
Under Secy.

No. 02, dated 13 December 2004.—The President is pleased to make the following appointments under AI 74/76 as amended:—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

To be Lt. (On Prob)

Pradeep Kumar (MR-08015X), AMC, 27 Feb 2004.

H. Rama (MR-08018L), AMC, 27 Feb 2004.

Disha Dabbas (MR-08019N), AMC, 27 Feb 2004.

Vivek Sood (MR-08020H), AMC, 27 Feb 2004.

Gurdarshdeep Singh Madan (MR-08021L), AMC, 27 Feb 2004.

Ankit Singal (MR-08023W), AMC, 27 Feb 2004.

Supreet Singh Nayyar (MR-08024Y), AMC, 27 Feb 2004.

Virender Malik (MR-08025F), AMC, 27 Feb 2004.

Priyanka Mishra (MR-08026K), AMC, 27 Feb 2004.

Kunal Kishore (MR-08027M), AMC, 27 Feb 2004.

Gaurav Relhan (MR-07857W), AMC, 22 Feb 2003.

To be Surg Sub Lt. (On Prob)

Mayank Ajay Kacker (MR-07964X), AMC, 26th Aug 2003.

Javed Qureshi (MR-07970L), AMC, 26 Aug 2003.

M. SRIVASTAVA
Brig
Dy. DGAFMS (P)

No. 03, dated 14 December 2004.—The President is pleased to make the following appointment:—

REGULAR ARMY

(SHORT SERVICE COMMISSION)

To be Lt.

The undermentioned officer of SSC (NT)-74 Course has completed his Short Service Commission on probation for

six months commencing from 07 Sep 2002. He is granted Short Service Commission in the rank of Lt for a period of five years wef 07 Sep 2002 under the provisions of SAI 3/S/98 as amended.—

Gaurav Seth (SS-39797A), INF with seniority next below Lt. Narinder Singh Chib (SS-39796X), ASC whose name appeared in the Gazette of India, Ministry of Defence Notification published on 29th Nov. 2003.

1. The undermentioned Lady Cadets of WSES (O)-23 Course have completed Special Short Service Commission (on probation) for six months commencing from 20 Mar 2004. They are granted Short Service Commission in the rank of Lt. for a period of five years wef 20 Mar 2004 under the provisions of SAI/92 as amended:—

Name, Personal Number, Arm/Service

Rashmi Narayan (WS-00847K), INT.

Mandeep Viridi (WS-00849P), ASC

Pallavi Singh (WS-00850K), ADA

Sweta Arora (WS-00851M), AOC

Gayatri Bhalchandra Kulkarni (WS-00852P), Sigs

Priyanka Singh (WS-00853X), ASC

Shagun Gogia (WS-00854A), AOC

Gaikwad Smita Ramakant (WS-00855H), Engr.

Vijeyata Thakur (WS-00856L), EME

Agnes Prafulla Menezes (WS-00858W), AEC

Ravneet (WS-00861W), EME

Nikita Mangrulkar (WS-00862Y), AOC

Manleen Kaur Bajwa (WS-00864K), AOC

Namrata P Pallav (WS-00866P), ADA

Chauhan Rakhi Ram Bir Singh (WS-00867X), ASC

Sumud Singh (WS-00868A), ADA

Kajli Sehgal (WS-00871A), ASC

Ranjeeta Sahu (WS-00872H), EME

N. Bindu (WS-00873L), ASC

Sangeeta Sonar (WS-00874N), AOC

Gurai Jasmeet Kaur Jagtar Singh (WS-00875W), ASC

Zorampari Oinam (WS-00876Y), ASC

Susan Roy (WS-00877F), Engr.

Richa Pathak (WS-00878K), ASC

Namrata Naruka (WS-00879M), ADA

Ruchika Mehta (WS-00881K), Engr.

K Sumathi (WS-00883P), AOC

Kulkarni Gauri Subhash (WS-00884X), AOC

Neelam Thakur (WS-00885A), AOC

Anu Sharma (WS-00886H), AOC

Dipti (WS-00887L), ASC
 Pooja Garg (WS-00888N), Engr
 Durga Wati (WS-00889W), ASC
 Harkiran (WS-00890L), ADA
 Ruma Peter (WS-00891N), Engr
 Ahirkar Sonali Prabhakar (WS-00894F), AOC
 Sarvjyot Kaur (WS-00895K), AOC
 Deepa Bohara (WS-00897P), EME
 Shalini Negi (WS-00898X), ADA
 Rakshita (WS-00901M), AOC
 Vidya Rajan (WS-00902P), ASC
 Priyadarshini Pooja Nayak (WS-00905H), ADA
 Geetika (WS-00906L), ASC
 Anjali Bhatt (WS-00907N), INT
 Rajni Sharma (WS-00908W), JAG
 Divjot Kaur Chawla (WS-00909Y), ASC
 Latika Shukla (WS-00911W), ASC
 Aditi Goswamy (WS-00912Y), AEC
 Pallavi Jamwal (WS-00915M), AOC
 Priti Tiwari (WS-00916P), AOC
 Parminder Kaur (WS-00917X), ASC
 Indu. P (WS-00921A), Engr.

4. The undermentioned lady Officers are granted Special Short Service Commission (on probation) in the rank of Lt. under the provisions of AI. 10/96 (Corrigendum 9 dt 01 Jun 96 to SAI 1/S92) wef 06 Oct. 2003. On successful completion of their training, their Special Short Service Commission (on probation) is confirmed, ie, they are granted Short Service Commission for five years wef 20 Mar 2004, they are also granted whose names mentioned above at Ser Nos. 2, 11, 13, 14, 17, 19, 23, 24, 34, 36, 46, 51, 52, 55, 56, 62, 65, 66, 70, and 72 respectively are granted Special Short Service Commission (on probation) in the rank of Lt under the provisions of AI 10/96 (Corrigendum No. 9 dt 01 Jun 96 to SAI 1/S92) wef 06 Oct 2003. On successful completion of their training at OTA Chennai, their Special Short Service Commission (on probation) is confirmed, ie, they are granted Short Service Commission for five years wef 20 Mar 2004. They are also granted two years ante-date seniority for promotion and increments of pay wef 20 Mar 2002 for possession of technical qualification under the above AI:—

Name, Personal Number, Arm/Service

Smita Shankar Bagbande (WS-00848M), Sigs.
 Bhavsar Janhavi Mukesh (WS-00857N), EME
 Preeti Janardhan Bhisikar (WS-00859Y), Sigs.
 S Freney Francis (WS-00860N), EME

Garima Singh (WS-00863F), Engr
 Madhu Jamwal (WS-00865M), Sigs
 S Kavitha Reddy (WS-00869H), EME
 Ghosh Vidisha Ramendu Sundar (WS-00870X), Sigs
 Gunjjan Gupta (WS-00880F), Sigs
 Anshula (WS-00882M), EME
 Nisha Singh (WS-00899A), Engr
 Potdar Shubhangi Uttamkumar (WS-00900K), Sigs
 Jasreen Dhillon (WS-00903X), Engr
 Raikar Prarthana Chandrakant (WS-00904A), Engr
 Babita (WS-00910N), Engr
 Sonal Sharma (WS-00913F), Sigs
 Sugathan Shomi Krishnan (WS-00914K), EME
 Hemavathi K N (WS-00920X), Sigs
 Dahiya Ritu Mohinder Singh (WS-00922H), EME

ARVIND KUMAR
 Maj
 DAMS 8B

KARYALAYA MAHA NIDESHAK SASHAstra SENA CHIKITSA SEWA

No. 4, dated the 13th December 2004.—The President is pleased to lift the probation period of the following Lady Medical Officer (FW) and appoint her in substantive capacity in the grade of Lady Medical Officer (FW) with effect from the dates mentioned against her name.

Sr. No., Name, Date of appointment, Date from which probation is lifted & Date of Confirmation

1. Dr. (Mrs) Neena Tarun Sharma, 23.10.2001, 22.10.2003—23.10.2003

SANJAY SINHA
 SCSO
 DG-3D

COAST GUARD HEADQUARTERS

No. 5, dated 9th December 2004.—The President is pleased to appoint following as Assistant Commandant (GD/Tech) in Coast Guard with effect from the date indicated against each:—

Name (General Duty)	Appointment	Date of Joining	Personal No.
1	2	3	4
S/Shri Kailash Singh	Appointed as Assistant Comdt. (GD/PN) and (Tech) in the pay Scale of Rs. 8000-275-13500/- on probation of two years.	28 June 2004	0624-Q

1	2	3	4
Dinesh Kumar	Appointed as Assistant Comdt. (GD/PN) and (Tech) in the pay Scale of Rs. 8000-275-13500/- on probation of two years.	28 June 2004	0625-S
Vivek Dogra	—do—	—do—	0626-V
Navtej Singh Sohal	—do—	—do—	0627-X
Talke Ramesh Vasant	—do—	—do—	0628-C
Sreenivas Gadani	—do—	—do—	0629-D
Abdulla Rasheem Kallingal	—do—	—do—	0630-E
Abhinav Gupta	—do—	—do—	0631-J
Ameen Basha	—do—	—do—	0632-L
Manoj Kumar	—do—	—do—	0633-M
Rakshit Sharma	—do—	—do—	0634-P
Surendranath Sumal	Appointed as Dy. Comdt. (Law) in the Pay Scale of Rs. 10,000-325-15200/- on probation of two years	11 Nov 2004	0635-Q
(TECHNICAL)			
Abhinav Sharma	Appointed as Asst Comdt. (Tech) in the Pay Scale of Rs. 8000-275-13500/- on Probation of two years	28 Jun 2004	5086-J
Charanmeet Singh	—do—	—do—	5087-L
Dheeraj Mishra	—do—	—do—	5088-M
EDS Rajan	—do—	16 Jun 2004	4131-M
Rajesh Kurian	—do—	28 Jun 2004	4132-P
ABY Peter	—do—	—do—	4133-Q
R Aravind	—do—	—do—	4134-S

G.S.AUDHKHASI
Under Secy. (Pers)

ARMY BRANCH

No. 06, dated 8 December 2004—The President is pleased to make the following promotion:—

REGULAR ARMY

CORPS OF ARTILLERY

To be Nb Sub

RHM Natthi Singh (No. 14469111M now JC-299024N), 31 Aug 2004/01 Jan 2004*

BHM Dohale Hetram Vithoba (No. 14372951H now JC-299025W), 09 Jul 2004/06 May 2004*

BHM Shankar Singh (No. 14368006P now JC-299026Y), 22 Jul 2004/11 June 2004*

RHM Tara Chand (No. 14359645P now JC-299027F), 12 Aug 2004/01 Jul 2004*

RHM S Sekar (No. 14356299X now JC-299028K), 24 Aug 2004/20 Jul 2004*

BHM Raj Singh (No. 14367703H now JC-299029M), 25 Jul 2004/24 Jul 2004*

BHM U Ayyanar (No. 14361724H now JC-299030F), 23 Aug 2004/30 Jul 2004*

HAV Moti Lal Parit (No. 14373315F now JC-299031K), 18 Aug 2004/01 Aug 2004*

RHM Satpal (No. 14359636N now JC-299032M), 28 Aug 2004/01 Aug 2004*

BHM Balakrishnan V (No. 14369075X now JC-299033P), 25 Aug 2004/03 Aug 2004*

BHM Kiran Kumar Singh Gautam (No. 14348469H now JC-299034X), 31 Aug 2004/03 Aug 2004*

BHM Ashok Kumar Singh (No. 14354856N now JC-299035A), 07 Sep 2004/08 Aug 2004*

BHM Pala Singh (No. 14371365N now JC-299036H), 31 Aug 2004/11 Aug 2004*

Hav Venkatesan P (No. 14469246N now JC-299037L), 01 Sep 2004

BHM Pattan Usman Khan (No. 14357376P now JC-299038N), 01 Sep 2004

BHM Joginder Singh (No. 14476183Y now JC-299039W), 19 Feb 2004/01 Feb 2004*

BHM Liakat Ali (No. 14468553Y now JC-299040L), 05 Aug 2004/01 Jul 2004*

BHM Atar Singh Yadav (No. 14360381L now JC-299041N), 15 Aug 2004/01 Aug 2004*

BHM Pradcepan K (No. 14368374K now JC-299042W), 20 Aug 2004/01 Aug 2004*

BHM Landge Ashok Manikrao (No. 14351283K now JC-299043Y), 08 Sep 2004/01 Aug 2004*

BHM Rafael Herenj (No. 14352349F now JC-299044F), 08 Sep 2004/01 Aug 2004*

BHM Dashrath Mabihi (No. 14361861F now JC-299045K), 08 Sep 2004/07 Aug 2004*

BHM Lala Ram Yadava (No. 14354380M now JC-299046M), 15 Sep 2004/31 Aug 2004*

BHM P Chinnatheyan (No. 14354199M now JC-299047P), 15 Sep 2004/31 Aug 2004*

Hav Indrapal Singh (No. 14352189M now JC-299048X), 15 Sep 2004/31 Aug 2004*

BHM Ram Singh (No. 14346604M now JC-299049A), 15 Sep 2004/31 Aug 2004*

BHM Harisha Chandra Thakur (No. 14342470F now JC-299050P), 18 Sep 2004/31 Aug 2004*

BHM Shib Raj Singh (No. 14343006K now JC-299051X), 18 Sep 2004/31 Aug 2004*

BHM Saji VP (No. 14365094L now JC-299052A), 01 Sep 2004

BHM Azad Singh (No. 14382244M now JC-299053H),
01 Sep 2004

BHM Ashok Kumar T (No. 14363315N now JC-299054L),
08 Sep 2004/01 Sep 2004*

BHM Naba Kumar Mondal (No. 14365505Y now JC-
299055N), 12 Sep 2004/01 Sep 2004*

BHM Janardhan Mishar (No. 14353048K now JC-
299056W), 10 Sep 2004/26 Jul 2004*

Hav Hari Om Sharma (No. 15103682H now JC-299057Y),
29 Sep 2004/30 Jul 2004*

BHM G Laxmanan (No. 14358549N now JC-299058F),
29 Sep 2004/31 Jul 2004*

Hav Aswasthama (No. 14362433P now JC-299059K), 30
Sep 2004/01 Aug 2004*

BHM Ravindra Kumar (No. 14356803N now JC-
299060Y), 21 Sep 2004/19 Aug 2004*

BHM Jai Singh (No. 14355629A now JC-299061F), 23
Sep 2004/25 Aug 2004*

BHM Rajvir Sharma (No. 14367856M now JC-299062K),
01 Sep 2004.

BHM Manjit Singh (No. 14369300F now JC-299063M),
18 Sep 2004/01 Sep 2004*

BHM Barjinder Singh (No. 14355762F now JC-299064P),
25 Sep 2004/01 Sep 2004*

BHM Patil Lahu Ganapati (No. 14359075K now JC-
299065X), 01 Oct 2004/05 Sep 2004*

RHM Gurdayal Singh (No. 14358133W now JC-
299066A), 01 Oct 2004

BHM Janak Raj (No. 14362374N now JC-299067H), 01
Oct 2004

BHM Pandurang Patil (No. 14377745H now JC-299068L),
01 Oct 2004

Hav Nirmal Kumar Sahoo (No. 14368917L now JC-
299069N), 15 Oct 2004/01 Oct 2004*

*(Gtd ante-date seniority wef)

RAJENDRA CHATURVEDI
Under Secy.

CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERING

No. 07, dated 10 December 2004—The President is
pleased to promote Shri P Jaiprakash, Office Superintendent
to the grade of EME Officer (Civilian) in the Corps of EME
under Ministry of Defence with effect from 23 Jan 2004
(Forenoon).

He will remain on probation for a period of two years.

The President is pleased to promote Shri Abdul Ghafir
Khan, Draughtsman Gde I to the grade of Chief Draughtsman,
Group 'B' Gazetted in the Corps of EME under Ministry of
Defence with effect from 19 Mar 2004 (Forenoon).

He will remain on probation for a period of two years.

N.K. KASHMIRA, Under Secy.

No 08, dated 09 December 2004.—The President is
pleased to make the following promotions.

REGULAR ARMY (ARMY MEDICAL CORPS)

To be Naib Subedar (Ambulance Assistant)

Hav Balwant Singh (No. 13946811A now JC-694765P),
13 May 2004*

Hav Ajit Singh Yadav (No. 13946962Y now JC-694766X),
12 May 2004*

*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2004
without effect on pay & allces)

Hav Raj Nath Rai (No. 13947060W now JC-694767A),
05 Jul 2004*

Hav Sunil Kumar Sinha (No. 13947103A now JC-
694816X), 22 Jul 2004*

Hav Nandji Dubey (No. 13947127K now JC-694768H),
05 Jul 2004*

Hav Paritosh Kumar Saha (No. 13947368K now JC-
694769L), 05 Jul 2004*

*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2004
without effect on pay & allces)

Hav Rathava Maliya Bhai Bhuna Bhai (No. 13947493N
now JC-694817A), 01 Aug 2004*

Hav Nobin Ch Gogoi (No. 13948151M now JC-
694818H), 26 Aug 2004*

*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2004
without effect on pay & allces)

To be Naib Subedar (Driver)

Hav Karambir (No. 13946673K now JC-694770A), 29
Jun 2004*

Hav Hardayanand Ram (No. 13947054H now JC-
694771H), 19 Jun 2004*

*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2004
without effect on pay & allces)

Hav Hari Shankar Prasad (No. 13947067A now JC-
694820A), 08 Jul 2004*

Hav Srinivas Singh (No. 13947124W now JC-694772L),
01 Jul 2004*

*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2004 without effect on pay & allces)

Hav Rajender Prasad Gupta (No. 13947218N now JC-694821H), 24 Aug 2004*

Hav Birendra Prasad Singh (No. 13947228X now JC-694822L), 10 Sep 2004*

Hav Mahendra Chandra Ray (No. 13947554A now JC-694823N), 21 Aug 2004*

*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2004 without effect on pay & allces).

To be Naib Subedar (Nur Tech)

Naik Kamlesh Kumar Pandey (No. 13972122W now JC-694307Y), 10 Mar 2003*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 13 Sep 2002 without effect on pay and Allces).

Hav Arjan Singh (No. 13961366K now JC-694606X), 26 Feb 2004*

Hav Puran Chandra Joshi (No. 13961779N now JC-694607A), 28 Feb 2004*

Naik AVR Srinagesh (No. 13968782W now JC-694608H), 25 Feb 2004*

Naik Paul NP (No. 13969006H now JC-694609L), 26 Feb 2004*

Naik Chandra Mohan Singh (No. 13969091W now JC-694610A), 27 Feb 2004*

Naik Ramesh Chand (No. 13969649A now JC-694611H), 25 Feb 2004*

Naik Ranbir Singh (No. 13970506M now JC-694612L), 26 Feb 2004*

Naik Onkar (No. 13971558M now JC-694613N), 27 Feb 2004*

Naik Sonawane Shriram Thakunath (No. 13971869H now JC-694614W), 28 Feb 2004*

Naik Satish Kumar (No. 13972059M now JC-694615Y), 27 Feb 2004*

Naik Dinesh Chandra (No. 13972137Y now JC-694616F), 27 Feb 2004*

Naik Bare Lal (No. 13972117L now JC-694617K), 25 Feb 2004*

Naik Ashok Kumar Mishra (No. 13972750L now JC-694618M), 24 Feb 2004*

Naik Ramesh Chandra (No. 13973450W now JC-694619P), 26 Feb 2004*

Naik Ajeet Singh (No. 13973428L now JC-694620K), 27 Feb 2004*

Naik Dhumal Kalidas Narsing (No. 13974150F now JC-694621M), 26 Feb 2004*

Naik Gavhane Ramdas Sitaram (No. 13974146Y now JC-694622P), 25 Feb 2004*

Naik Gopal Singh Samant (No. 13974228F now JC-694623X), 24 Feb 2004*

Naik Awate Mangaldas Maruti (No. 13974294K now JC-694624A), 27 Feb 2004*

Naik Brijesh Kumar Mishra (No. 13974249X now JC-694625H), 01 Mar 2004*

Naik P Chandra Sekaran (No. 13974352H now JC-694626L), 25 Feb 2004*

Naik Bharat Bhusan Verma (No. 13974375K now JC-694627N), 26 Feb 2004*

Naik Santosh Kumar Raghuwanshi (No. 13974449N now JC-694628W), 25 Feb 2004*

Naik Dinesh Pandey (No. 13974550N now JC-694629Y), 26 Feb 2004*

Naik Navin Chandra (No. 13974604K now JC-694630N), 23 Feb 2004*

Naik Kailash Chandra Singh (No. 13974613W now JC-694631W), 24 Feb 2004*

Naik Rajandra Kumar Joshi (No. 13974605M now JC-694632Y), 21 Feb 2004*

Naik Kuldeep Singh (No. 13974645N now JC-694633F), 26 Feb 2004*

Naik Mamraj Singh (No. 13975073K now JC-694634K), 27 Feb 2004*

Naik Vyas Jayesh Aravind Bhai (No. 13974181F now JC-694635M), 24 Feb 2004*

Naik Ashok Kumar VR (No. 13974431X now JC-694636P), 25 Feb 2004*

*(Gtd. seniority in the rank of Naib Subedar wef 29 Aug 2003 without effect on pay and Allces).

(ARMY MEDICAL CORPS RECORDS)

To be Substantive Subedar Major (Physiotherapy Assistant)

Sub Binod Sharma (JC-690529W), 01 Aug 2003

To be Substantive Subedar Major (Laboratory Assistant)

Sub Sadhan Kumar Singha (JC-691301M), 01 May 2003

To be Substantive Subedar Major (Psychiatric Nursing Assistant)

Sub Anrudh Prasad Pandey (JC-691698K), 01 Nov 2003

To be Substantive Subedar Major (Laboratory Technician)

Sub Sher Singh Chouhan (JC-691315M), 01 Nov 2003

Sub Kanna Dasan T (JC-691424Y), 01 Mar 2004	To be Substantive Subedar (Operation Room Assistant)
To be Substantive Subedar Major (Radiographer)	Naib Sub Rajagopal G (JC-692213H), 01 Sep 2002
Sub Kirjapu Thoudu (JC-192195H), 01 Feb 2003	Naib Sub Yudhisthira Dikshit (JC-692192X), 01 Mar 2003
Sub Vasant Sankpal (JC-192202N), 01 Jul 2003	Naib Sub Tapash Kumar Karmakar (JC-692536L), 01 Mar 2003
Sub Amrit Lal Purohit (JC-192209X), 01 Sep 2003	Naib Sub Bhaskar Chakrabarti (JC-692537N), 01 Apr 2003
Sub Rishi Pal (JC-192210M), 01 Feb 2004	Naib Sub Mrityunjoy Biswas (JC-692538W), 01 Apr 2003
To be Substantive Subedar Major (Operation Room Assistant)	Naib Sub Surendra Singh Bist (JC-692539Y), 01 Jul 2003
Sub Bhupinder Singh Banga (JC-690243F), 01 Sep 2003	Naib Sub Birbal Singh (JC-692540N), 01 Jul 2003
Sub Sujit Kumar Ghosh (JC-690400H), 01 Nov 2003	Naib Sub Andrews AP (JC-692542Y), 01 Jul 2003
Sub Guru Samy N (JC-690401L), 01 Dec 2003	Naib Sub Ramesh G (JC-692543F), 01 Aug 2003
Sub Indra Bhushan Pachauri (JC-690903N), 01 Feb 2004	Naib Sub Surendra Singh (JC-692544K), 01 Aug 2003
To be Substantive Subedar Major (Dental Hygienist)	Naib Sub Narendra Narayan Lal (JC-692545M), 01 Sep 2003
Sub Sumit Sen (JC-691305H), 01 Oct 2003	Naib Sub Prasanna Kumar Singh (JC-692566H), 01 Sep 2003
Sub Prabhu Dayal Yadav (JC-691311W), 01 Dec 2003	Naib Sub Swapan Kumar Chakraborty (JC-692592K), 01 Sep 2003
To be Substantive Subedar Major (Dental Technician)	Naib Sub Krishnan Kutty S (JC-692567L), 01 Sep 2003
Sub Vijay Pal Singh Bhadoria (JC-198364P), 01 Mar 2004	Naib Sub Livin Ekka (JC-692568N), 01 Oct 2003
To be Substantive Subedar Major (Pharmacist)	Naib Sub Udhay Chandra Dawn (JC-692569W), 01 Oct 2003
Sub Pawar Dhananjay Ram Chandra (JC-690694F), 01 Oct 2003	Naib Sub Haridasan PM (JC-692570L), 01 Oct 2003
Sub Harish Chandra Panda (JC-690699A), 01 Nov 2003	Naib Sub M Arumugam (JC-692571N), 01 Oct 2003
To be Substantive Subedar (Psychiatric Nursing Assistant)	Naib Sub Amar Kumar Kuila (JC-692572W), 01 Oct 2003
Naib Sub Yend Reddy Chandra Babu (JC-692602H), 01 Sep 2003	Naib Sub Ratan Chandra Chakraborty (JC-692573Y), 01 Oct 2003
Naib Sub Madhu Soodanan Pillai PK (JC-692603L), 01 Nov 2003	Naib Sub Gautam Sankar Das (JC-692574P), 01 Nov 2003
Naib Sub Ajab Singh (JC-692693X), 01 Jan 2004	Naib Sub Om Prakash Verma (JC-692575K), 01 Dec 2003
Naib Sub Purushottam (JC-693342P), 01 Jan 2004	Naib Sub Prem Shankar (JC-692593M), 01 Dec 2003
Naib Sub Mohammad Gayasuddin (JC-693493N), 01 Jan 2004	Naib Sub Suresh Pandey (JC-692576M), 01 Dec 2003
To be Substantive Subedar (Physiotherapy Assistant)	Naib Sub Indramani Prasad Tiwari (JC-692577P), 01 Jan 2004
Naib Sub Rajjan Singh (JC-693507H), 01 Nov 2002	Naib Sub Radha Krishnan K (JC-692594P), 01 Jan 2004
Naib Sub Ram Briksh Chauhan (JC-693959L), 01 Apr 2003	Naib Sub Rajendran L (JC-692595X), 01 Jan 2004
Naib Sub Bansi Dhar (JC-693523A), 01 Apr 2003	Naib Sub Balakrishna Pillai K (JC-692596A), 01 Jan 2004
Naib Sub R Govind Raj (JC-693572H), 01 Jan 2004	Naib Sub Zalaria Mansukh Mohan (JC-692597H), 01 Feb 2004
Naib Sub Radha Krishnan R (JC-693661F), 01 Jan 2004	Naib Sub Avtar Singh (JC-692598L), 01 Mar 2004
Naib Sub Sunil Dutt Goel (JC-693662K), 01 Jan 2004	Naib Sub P Anbazhagan (JC-692599W), 01 Apr 2004
Naib Sub Lal Chand (JC-693845A), 01 Jan 2004	Naib Sub Rajender Singh (JC-692675P), 01 Apr 2004
Naib Sub Ved Prakash (JC-693846H), 01 Apr 2004	

To be Substantive Subedar (Special Treatment Assistant)

Naib Sub Om Prakash Verma (JC-693259X), 01 Apr 2003
 Naib Sub Subhash Chandra (JC-693343X), 01 Apr 2003
 Naib Sub Joseph Varghese (Puthuparampu) (JC-693484M), 01 Apr 2003
 Naib Sub Keshavdev Sharma (JC-693485P), 01 Jul 2003
 Naib Sub Prasanna Kumar MD (JC-693520M), 01 Sep 2003
 Naib Sub Ramji S Thomas (JC-693562Y), 01 Jan 2004
 Naib Sub Md Monirul Islam (JC-693663M), 01 Jan 2004
 Naib Sub Abdul Rahman Ansari (JC-693780X), 01 Feb 2004
 Naib Sub Bikash Chandra Singha (JC-693862A), 01 Apr 2004

To be Substantive Subedar (Dental Hygienist)

Naib Sub S Shahul Hamed (JC-693345H), 01 Jan 2003
 Naib Sub Chandra Sekhar Singh Negi (JC-693540A), 25 Jan 2003
 Naib Sub Ved Prakash Mishra (JC-693541H), 01 Jul 2003
 Naib Sub Purushothaman Mavila (JC-693522X), 01 Sep 2003
 Naib Sub Bikash Chandra Sinha (JC-693568A), 01 Oct 2003
 Naib Sub Deena Nath Prasad (JC-693933W), 01 Oct 2003
 Naib Sub Raveendran Pillai VN (JC-693934Y), 01 Oct 2003

Naib Sub Dharamvir (JC-693935F), 01 Dec 2003

Naib Sub Ahmed Khan (JC-693965Y), 01 Jan 2004

Naib Sub Rohtas Singh (JC-694073A), 01 Jan 2004

Naib Sub Khayeli Ram (JC-694038X), 01 Mar 2004

Naib Sub Thangavel T (JC-694039A), 01 Mar 2003

To be Substantive Subedar (Dental Technician)

Naib Sub Purushothaman P (JC-691824L), 01 Mar 2003
 Naib Sub Samaresh Ghosh (JC-691831L), 01 Mar 2003
 Naib Sub Mohan Shet (JC-691825N), 01 Apr 2003
 Naib Sub Chithramgathan KB (JC-691960F), 01 Jan 2004
 Naib Sub Dodia Natha Bhai Khima Bhai (JC-692156M), 01 Jan 2004
 Naib Sub Dinesh Kumar Tiwari (JC-692525Y), 01 Jan 2004
 Naib Sub Shri Niwash Varma (JC-692526F), 01 Mar 2004
 Naib Sub Jose Varaghese (JC-692527K), 01 Mar 2004

To be Substantive Subedar (Pharmacist)

Naib Sub Radha Kishan (JC-692647H), 01 Oct 2002
 Naib Sub Tapan Kumar Ghosh (JC-692656K), 01 Aug 2003
 Naib Sub L Rajiah (JC-692657M), 01 Sep 2003
 Naib Sub G Savari Rajan (JC-692658P), 01 Oct 2003
 Naib Sub Dilbar Singh (JC-692659X), 01 Nov 2003
 Naib Sub Mukund Singh (JC-692660M), 01 Nov 2003
 Naib Sub Dinesh Chandra (JC-692661P), 01 Feb 2004

To be Substantive Subedar (Radiographer)

Naib Sub Rakesh Kumar (JC-691804X), 01 Feb 2003
 Naib Sub Sajeev KS (JC-691805A), 01 Apr 2003
 Naib Sub Arun Kumar Naik (JC-692144X), 01 Sep 2003
 Naib Sub Satadal Das (JC-691982A), 01 Sep 2003
 Naib Sub Tarlok Singh (JC-691985H), 01 Feb 2004
 Naib Sub Prem Kumar (JC-692146H), 01 Mar 2004
 Naib Sub Ashok Kumar Gautam (JC-692147L), 01 Mar 2004
 Naib Sub Ram Rattan (JC-692151N), 01 Apr 2004
 Naib Sub Surender Kumar (JC-692152W), 01 Apr 2004
 Naib Sub Anil Kumar Shrivastawa (JC-692161X), 01 Apr 2004

To be Substantive Subedar (X-Ray Assistant)

Naib Sub Kanwar Singh (JC-691806H), 13 May 2003
 Naib Sub Palwinder Jit Singh (JC-691839X), 01 Jul 2003
 Naib Sub Suresh Kumar Dangi (JC-692145A), 01 Jan 2004

Naib Sub Bhanu Prakash (JC-691986W), 01 Feb 2004

To be Substantive Subedar (Laboratory Assistant)

Naib Sub Rabindranath Dwivedi (JC-693333N), 01 Feb 2003
 Naib Sub Narendra Nath Chakraverty (JC-693334W), 01 Feb 2003
 Naib Sub Mahesh Singh (JC-693335Y), 01 Mar 2003
 Naib Sub K Ananda Raj (JC-693375A), 01 Apr 2003
 Naib Sub Jitendra Nath Rai (JC-693486X), 01 Apr 2003
 Naib Sub Amar Singh Rana (JC-693487A), 01 May 2003
 Naib Sub Chandra Shekhar Sharma (JC-693488H), 01 Jul 2003
 Naib Sub Ravindra Singh Deopa (JC-693489L), 01 Jul 2003

Naib Sub Alekha Kumar Pradhan (JC-693542L), 01 Jul 2003

Naib Sub Kumaresan M (JC-693543N), 01 Jul 2003

Naib Sub Dharambir Singh Dahiya (JC-693544W), 01 Jul 2003

Naib Sub Dinesh Kumar Mishra (JC-693545Y), 01 Sep 2003

Naib Sub Pawar Dhanaji Shankar (JC-693569H), 01 Oct 2003

Naib Sub K Mohan Ram (JC-693570X), 01 Nov 2003

Naib Sub Abhaymant Kumar (JC-693571A), 01 Dec 2003

Naib Sub Jiban Kumar De (JC-693659K), 01 Dec 2003

Naib Sub Avijit Bhattacharjee (JC-693660Y), 01 Jan 2004

Naib Sub Chittaranjan Behera (JC-693773F), 01 Jan 2004

Naib Sub Jadhav Tanaji Krishna (JC-693774K), 01 Jan 2004

Naib Sub Rajinder Singh (JC-693848N), 01 Feb 2004

To be Substantive Subedar (Dental Operating Room Assistnat)

Naib Sub Phool Badan Singh (JC-693030Y), 01 Oct 2003

Naib Sub Kailash Chandra Mohanty (JC-692979M), 01 Oct 2003

Naib Sub Santi Nath Dey (JC-693007L), 01 Nov 2003

Naib Sub Surender Singh (JC-693031F), 01 Jan 2004

Naib Sub Ram Chander Beniwal (JC-693036A), 01 Jan 2004

Naib Sub Jamuna Prasad Sharma (JC-693129P), 01 Jan 2004

Naib Sub Suresh Kumar VN (JC-693262X), 01 Jan 2004

Naib Sub Sree Kumar TM (JC-693361A), 01 Jan 2004

Naib Sub M Rajamanickam (JC-693483K), 01 Jan 2004

Naib Sub Manjunatha S (JC-693561W), 01 Feb 2004

Naib Sub Hrishikesan N (JC-693771W), 01 Feb 2004

Naib Sub Fredy Cardoz J (JC-693772Y), 01 Mar 2004

Naib Sub Jaya Prakash (JC-693941F), 01 Apr 2004

To be Substantive Subedar (Blood Transfusion Assistant)

Naib Sub Subhash Chand Prasad (JC-692608K), 01 Sep 2003

Naib Sub Kunj Bihari (JC-692609M), 01 Oct 2003

Naib Sub Jagdish Prasad Swami (JC-692611K), 01 Oct 2003

Naib Sub Ganes Chandra Mandal (JC-692691M), 01 Dec 2003

Naib Sub Phul Bahadur Tamang (JC-693344A), 01 Jan 2004

Naib Sub Shaikhatteer Deen (JC-693379W), 01 Jan 2004

Naib Sub Indra Bahadur Singh (JC-693482F), 01 Jan 2004

Naib Sub Rinchen Simick (JC-693655N), 01 Feb 2004

(ARMY MEDICAL CORPS)

To be Substantive Subedar Major (Ambulance Assistant)

Sub Mahipal Singh Khuchi (JC-692052L), 01 Jun 2004

Sub Prabhu Nath Upadhyay (JC-692056F), 01 Jun 2004

Sub Pashori Lal Dogra (JC-692057K), 01 Jun 2004

Sub Dharambir (JC-692059P), 01 Aug 2004

Sub Sudarshan Singh (JC-692061M), 01 Aug 2004

To be Substantive Subedar (Ambulance Assistant)

Naib Sub Pabitra Kumar Singha (JC-693602P), 01 Jun 2004

Naib Sub Jiwan Singh (JC-693604A), 01 Jun 2004

Naib Sub Anil Kumar Sirohi (JC-693605H), 01 Jun 2004

Naib Sub Jai Pal Singh (JC-693606L), 01 Jun 2004

Naib Sub Rajen Baruah (JC-693607N), 01 Aug 2004

Naib Sub Soman Pillai G (JC-693608W), 01 Aug 2004

Naib Sub Krishan Kumar Shukla (JC-693679X), 01 Sep 2004

Naib Sub Shiv Shankar Singh (JC-693680M), 01 Sep 2004

To be Substantive Subedar (Driver)

Naib Sub Raja Sekhar B (JC-693882N), 01 Feb 2002

Naib Sub Ramesh Chand Chauhan (JC-693099H), 01 Jul 2004

Naib Sub Janardan Singh (JC-693100M), 01 Jul 2004

Naib Sub Dandamudi Radhakrishna Murthy (JC-693102X), 01 Sep 2004

To be Naib Subedar (Nur Asstt)

Hav Kadam Baji Rao Kundalika (No. 2771430M now JC-694308F), 17 Apr 2003*

Hav Shri Krishan (No. 13947682X now JC-694333A), 16 Jun 2003*

Hav Gnyaneshwar (No. 13947690W now JC-694309K), 16 Apr 2003*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Apr 2003 without effect on pay and allces).

Hav Dharma Nand (No. 13947677M now JC-694388K), 02 Jul 2003*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Jun 2003 without effect on pay and allces).

Hav Kadam Subhash Tryambak (No. 13947732X now JC-694389M), 30 Aug 2003*

Hav Sanjiv Ranajan Singh (No. 13947735L now JC-694578W), 10 Sep 2003*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Aug 2003 without effect on pay and allces).

Hav Raghvendra Narayan Singh (No. 13947754W now JC-694508X), 19 Sep 2003*

Hav Rabindra Nath Jena (No. 13947787F now JC-694509A), 10 Sep 2003*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Sep 2003 without effect on pay and allces).

Hav Kewal Chand (No. 13947504P now JC-694510P), 13 Nov 2003*

Hav Aniya Ranjan Patanaik (No. 13947792M now JC-694511X), 28 Nov 2003*

Hav S Govindan (No. 13947802L now JC-694512A), 05 Dec 2003*

Hav Ved Prakash Samriwal (No. 13947834N now JC-694513H), 18 Dec 2003*

Hav Raj Kumar Sharma (No. 13947835W now JC-694514L), 06 Dec 2003*

Hav Jai Singh (No. 13947840F now JC-694515N), 02 Dec 2003*

Hav Mantu Singh Chauhan (No. 13947025N now JC-694516W), 10 Dec 2003*

Hav Ram Niwas (No. 13948003F now JC-694517Y), 26 Dec 2003*

Hav Bhuwaneshwar Prasad Nautiyal (No. 13948046W now JC-694518F), 21 Dec 2003*

Hav Ajay Kumar (No. 13948107H now JC-694738L), 19 Nov 2003*

Hav Ajit Singh (No. 13948216P now JC-694519K), 05 Dec 2003*

Hav Viswa Kumar PA (No. 13948316A now JC-694520Y), 01 Dec 2003*

Hav Santosh Chand (No. 13948484Y now JC-694521F), 01 Dec 2003*

Hav Lakhvir Singh Bajwa (No. 13948536K now JC-694522K), 06 Dec 2003*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Oct 2003 without effect on pay and allces).

Hav Sunil Chandra Roy (No. 13949250F now JC-694739N), 06 May 2004*

Hav Virendra Singh Yadav (No. 13949296K now JC-694523M), 28 Nov 2003*

Hav Anand Singh (No. 13949346K now JC-694524P), 06 Dec 2003*

Hav Dharambir Joon (No. 13949403A now JC-694525X), 24 Dec 2003*

Hav Desh Raj (No. 13949415P now JC-694526A), 05 Dec 2003*

Hav Brahmats Doon (No. 13949416X now JC-694527H), 15 Dec 2003*

Hav Om Prakash (No. 13948342F now JC-694579Y), 31 Dec 2003*

Hav Baljit Singh (No. 13948559L now JC-694528L), 15 Dec 2003*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Nov 2003 without effect on pay and allces).

Hav Pramod Kumar Singh (No. 13948320H now JC-694580N), 10 Jan 2004*

Hav Satbir Singh (No. 13949550H now JC-694529N), 16 Dec 2003*

Hav Koshy NS (No. 13949545X now JC-694530H), 09 Dec 2003*

Hav Bikram Singh Kalakoti (No. 13949556K now JC-694581W), 06 Dec 2003*

Hav Sanku K (No. 13949563A now JC-694582Y), 17 Jan 2004*

Hav Rameshwar Singh (No. 13949564H now JC-694583F), 14 Feb 2004*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Dec 2003 without effect on pay and allces).

Hav Joseph Jacob (No. 13949578H now JC-694584K), 07 Feb 2004*

Hav Satish Kumar Rai (No. 13949577A now JC-694585M), 05 Mar 2004*

Hav Suresh Kumar (No. 13949572F now JC-694680Y), 09 Mar 2004*

Hav Dinesh Kumar Pandey (No. 13949592P now JC-694681N), 18 Mar 2004*

Hav Jai Bhagwan Singh (No. 13949639W now JC-694682K), 26 Jan 2004*

Hav Ningthow Khomba Singha (No. 13949660X now JC-694586P), 23 Feb 2004*

Hav Laxman Kumar (No. 13949651K now JC-694587X), 20 Feb 2004*

Hav Mohan Singh (No. 13949650N now JC-694588A), 30 Jan 2004*

Hav Naresh Kumar Amrwal (No. 13949657X now JC-694589H), 12 Feb 2004*

Hav Bhagwati Singh (No. 13949674X now JC-694590X), 29 Jan 2004*

Hav Randhir Singh (No. 13949689A now JC-694591A), 09 Feb 2004*

Hav Ramphal (No. 13949700N now JC-694592H), 05 Feb 2004*

Hav Tapas Kumar Som (No. 13948768H now JC-694593L), 23 Feb 2004*

Hav Muhammad Hussain (No. 13949730L now JC-694531L), 03 Jan 2004*

Hav Adarsh Mohan (No. 13949749K now JC-694594N), 13 Feb 2004*

Hav Balbir Singh (No. 13949750Y now JC-694740H), 01 Mar 2004*

Hav Harjinder Singh (No. 13949758L now JC-694741L), 02 Mar 2004*

Hav Jagan Nath Roy (No. 13949780W now JC-694595W), 16 Feb 2004*

Hav Ram Kumar (No. 13949790A now JC-694683M), 23 Feb 2004*

Hav Surendra Kumar (No. 13949795Y now JC-694596Y), 01 Mar 2004*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Jan 2004 without effect on pay and allces).

Hav Awari Dattu Sitaram (No. 13949820M now JC-694684P), 01 Mar 2004*

Hav Ram Singh (No. 13949840A now JC-694685X), 29 Mar 2004*

Hav Sahab Singh (No. 13949856L now JC-694686A), 15 Mar 2004*

Hav Santosh Kumar Dubey (No. 13949912Y now JC-694687H), 15 Mar 2004*

Hav Omvir Singh (No. 13949933P now JC-694742N), 31 Mar 2004*

Hav Unni Krishnan P (No. 13949938N now JC-694688L), 09 Mar 2004*

Hav Lakshaman Prasad Choubey (No. 13949944F now JC-694743W), 12 Apr 2004*

Hav Sat Narain (No. 13950038F now JC-694597F), 01 Mar 2004*

Hav Dharampal (No. 13950043F now JC-694598K), 23 Feb 2004*

Hav Phool Kumar Kaushik (No. 13948983N now JC-694689N), 04 Mar 2004*

Hav Gheesu Singh (No. 13950115A now JC-694690H), 19 Mar 2004*

Hav Varghese PV (No. 13950176X now JC-694691L), 24 Mar 2004*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Feb 2004 without effect on pay and allces).

Hav Ram Niwas (No. 13950172F now JC-694692N), 20 Mar 2004*

Hav Ved Prakash Singh (No. 13950173K now JC-694599M), 01 Mar 2004*

Hav Manick Chandra Ghose (No. 13950417M now JC-694600W), 01 Mar 2004*

Hav Rajender Prasad (No. 13950514K now JC-694693W), 03 Mar 2004*

Hav Subhash Chander Silswal (No. 13950542W now JC-694601Y), 03 Mar 2004*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Mar 2004 without effect on pay and allces).

Hav Yetheendra Das PB (No. 13950546M now JC-694744Y), 10 May 2004*

Hav Padmanabhan PV (No. 13950579X now JC-694745F), 08 Apr 2004*

Hav Radha Krishna Pillai R (No. 13950601X now JC-694746K), 10 Apr 2004*

Hav Hawa Singh Vashist (No. 13950604L now JC-694747M), 21 Apr 2004*

Hav Mohan Lal Sharma (No. 13950722Y now JC-694748P), 10 Apr 2004*

Hav Bir Pratap Singh Kushwah (No. 13951024H now JC-694749X), 21 May 2004*

Hav Rajesh Singh (No. 13951167H now JC-694750M), 20 Apr 2004*

Hav J Devendiran (No. 13951450W now JC-694699X), 26 Apr 2004*

Hav Salim Kumar B (No. 13951473X now JC-694751P), 12 Apr 2004*

Hav Chandra Shekhar Bhatt (No. 13951574L now JC-694752X), 06 Apr 2004*

Hav Jagat Narayan (No. 13951614P now JC-694753A), 01 Apr 2004*

Hav Patil Sampatrao Bhimrao (No. 13951874M now JC-694754H), 15 Apr 2004*

Hav Ram Singh Manral (No. 13951890K now JC-694755L), 22 Apr 2004*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Apr 2004 without effect on pay and allces).

Hav Om Prakash Sangwan (No. 13948558H now JC-694756N), 04 Jun 2004*

Hav S Srinivasa Reddy (No. 13951990P now JC-694757W), 26 May 2004*

Hav Dinesh Prasad (No. 13952046N now JC-694758Y), 24 May 2004*

Hav Rajendar Prasad (No. 13952082Y now JC-694700F), 27 May 2004*

Hav Kapil Kishor Mishra (No. 13952142H now JC-694759F), 15 May 2004*

Hav Chandramani Singh (No. 13952212W now JC-694760W), 22 May 2004*

Hav Sayed Nasir Hussain (No. 13952229K now JC-694701K), 25 May 2004*

Hav Shri Krashan Pandit (No. 13952230Y now JC-694761Y), 01 Jun 2004*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 May 2004 without effect on pay and allces).

Hav Ram Naresh Singh (No. 13952219A now JC-694702M), 05 Jul 2004*

Hav Brij Bihari Yadav (No. 13952260W now JC-694800M), 06 Jul 2004*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Jun 2004 without effect on pay and allces).

Hav Jeeuat Bandhan Singh (No. 13950609K now JC-694801P), 19 Jul 2004*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Jul 2004 without effect on pay and allces).

R C RATURI
Under Secy.

No. 09, dated 8th December 2004.—The President is pleased to make the following promotion.

REGULAR ARMY

INFANTRY

THE RAJPUTANA RIFLES

To be Nb Sub (Religious Teacher)

Iqbal Ali Khan (JC-469504M), 20 Mar 2004

JAK LI

To be Naib Subedar (Religious Teacher)

Rect (RT) Ajay Kumar Mishra (No. 593101A now JC-593101A), 10 Jan 2004

Sigmn Raj Kumar Mishra (No. 15663109Y now JC-593128Y), 20 Mar 2004

Rect (RT) Sikandar Ali Khan (No. 593102H now JC-593102H), 20 Mar 2004

Rect (RT) Mohd Ishaq Khan (No. 593103L now JC-593103L), 20 Mar 2004

SPECIAL LIST

THE RAJPUT REGIMENT

To be Nb Sub (Religious Teacher)

Ram Raja Bhargava (JC-479352K), 19 Mar 2004

Shanti Bhusan Tripathi (JC-479353M), 19 Mar 2004

THE SIKH REGIMENT

To be Nb Sub

Hav Bhagwant Singh (No. 3384784W now JC-499353N), 28 Feb 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Rajinder Singh (No. 3380486H now JC-499354W), 20 Mar 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 14 Jan 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Harpal Singh (No. 3386194W now JC-499355Y), 11 Apr 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 14 Jan 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Nirdesh Singh (No. 3385530L now JC-499356F), 20 Mar 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 14 Jan 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Hukam Singh (No. 3382255L now JC-499357K), 20 Mar 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 14 Jan 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Baljinder Singh (No. 3386437F now JC-499358M), 13 Apr 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 14 Jan 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Gurchait Singh (No. 3385825F now JC-499359P), 15 Feb 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Kuljit Singh (No. 3386221P now JC-499360K), 11 Apr 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 23 Feb 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Jasbir Singh (No. 3381410P now JC-499361M), 23 Mar 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Sukhwinder Singh (No. 3382450H now JC-499362P),
20 Mar 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01
Mar 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Amarjit Singh (No. 3385995L now JC-499363X), 01
Mar 2004

Hav Amrik Singh (No. 3386497L now JC-499364A), 13
Apr 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01
Mar 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Sukhminder Singh (No. 3386576A now JC-
499365H), 13 Apr 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01
Mar 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Shamsher Singh (No. 3387286P now JC-499366L),
13 Apr 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 06
Mar 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Nirmal Singh (No. 3386123P now JC-499367N), 11
Apr 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01
Apr 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Jagtar Singh (No. 3382994X now JC-499368W), 01
Apr 2004

Hav Mewa Singh (No. 3381863A now JC-499369Y), 19
Apr 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01
Apr 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Kashmir Singh (No. 3387368X now JC-499370N),
13 Apr 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01
Apr 2004 without effect on pay and allowances).

To be Nb Sub (Religious Teacher)

Nk Dvr (MT) Kuldip Singh (No. 15117505N now JC-
499433L), 17 Jul 2004

Nk Surinder Singh (No. 15120113L now JC-499434N),
17 Jul 2004

L/Nk Harjit Singh (No. 3396316H now JC-499435W), 17
Jul 2004

L/Nk Dmn Sukhvinder Singh (No. 1489580W now JC-
499344M), 20 Mar 2004

To be Nb Sub

Hav Santokh Singh (No. 3385407M now JC-499345P),
20 Mar 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01
Jan 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Balbir Singh (No. 3381071A now JC-499346X), 05
Mar 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01
Mar 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Kulwinder Singh (No. 3381263X now JC-499347A),
10 Mar 2004

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01
Mar 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Sarbjit Singh (No. 3384878N now JC-499348H), 01
Mar 2004

Hav Hardev Singh (No. 3385595Y now JC-499349L), 01
Mar 2004

Hav Balwinder Singh (No. 3385780M now JC-499350A),
01 Mar 2004

To be Nb Sub Clk

Hav Clk Arindam Nandi (No. 3383932K now JC-
499351H), 01 Apr 2004

THE JAT REGIMENT

To be Nb Sub

Hav Ratan Singh (No. 3178028K now JC-489462M), 01
Mar 2004

Hav Balwan Singh (No. 3174152N now JC-489463P), 01
Mar 2004

To be Nb Sub (Religious Teacher)

Ved Vrata Tiwari (JC-489477P), 17 Jul 2004

INFANTRY

1 GR

To be Nb Sub

Hav Jhaman Singh Thapa (No. 5042413A now JC-
602512H), 21 Aug 2003*

*(Gtd ante date seniority without effect on pay and allces
wef 25 Jul 2003).

CQMH Luk Bahadur Ale (No. 5043396X now JC-
602515W), 16 Sep 2003*

*(Gtd ante date seniority without effect on pay and allces
wef 11 Aug 2003).

Hav Bhum Bahadur Thapa (No. 5042861M now JC-
602539A), 01 Dec 2003*

*(Gtd ante date seniority without effect on pay and allces
wef 01 Aug 2003).

Hav Sat Bahadur Gurung (No. 5042427A now JC-
602540P), 01 Jan 2004

Hav Nagendra Mall (No. 5043585F now JC-602541X),
07 Feb 2004*

*(Gtd ante date seniority without effect on pay and allces
wef 01 Feb 2004).

CHM Ganesh Prasad Gurung (No. 5043070F now JC-602542A), 01 Feb 2004

Hav Gautam Kumar Gurung (No. 5043216K now JC-602543H), 12 Feb 2004*

*(Gtd ante date seniority without effect on pay and allces wef 01 Feb 2004).

CQMH Deg Bahadur Thapa (No. 5043062H now JC-602544L), 01 Feb 2004

CHM Chok Bahadur Gurung (No. 5043283P now JC-602545N), 26 Feb 2004*

*(Gtd ante date seniority without effect on pay and allces wef 01 Feb 2004).

Hav Sher Bahadur Thapa (No. 5042741N now JC-602546W), 23 Mar 2004*

*(Gtd ante date seniority without effect on pay and allces wef 01 Jan 2004).

Hav Amrit Bahadur Thapa (No. 5042814P now JC-602547Y), 25 Mar 2004*

*(Gtd ante date seniority without effect on pay and allces wef 17 Jan 2004).

Hav Padam Bahadur Rana (No. 5043324M now JC-602548F), 20 Mar 2004*

*(Gtd ante date seniority without effect on pay and allces wef 01 Feb 2004).

(THE MAHAR REGIMENT)

To be Naib Subedar

CHM Khum Bhadur Thapa (No. 4551943H now JC-569396H), 10 Mar 2004@

@(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Oct 2003).

Hav Dinesh Kumar (No. 4560319L now JC-569397L), 28 Jan 2004@@

@@(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Nov 2003).

Hav Hargun Singh (No. 2982195H now JC-569398N), 19 Dec 2003@@@

@@@ (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Nov 2003).

CHM Rishi Pal (No. 4551171W now JC-569399W), 09 Feb 2004#

#(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Dec 2003).

Hav Ramesh Chandra (No. 4553410Y now JC-569400A), 12 Mar 2004##

##(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 06 Jan 2004).

CHM Tarsam Lal (No. 4554306X now JC-569401H), 09 Mar 2004###

###(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 19 Jan 2004).

CQMH Man Mohan Singh (No. 4550492F now JC-569402L), 25 Feb 2004\$

\$(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Feb 2004).

CQMH Charan Dass (No. 4549324W now JC-569403N), 23 Feb 2004\$\$

\$\$ (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Feb 2004).

Hav Tirath Singh (No. 4550696N now JC-569404W), 17 Mar 2004\$\$\$

\$\$\$ (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Feb 2004).

Hav Balbir Singh (No. 4557457F now JC-569405Y), 01 Feb 2004

Hav Nikka Ram (No. 4556618M now JC-569406F), 07 Mar 2004*

*(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Feb 2004).

CHM Ranvir Singh (No. 4550213L now JC-569407K), 15 Mar 2004**

** (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 09 Feb 2004).

To be Naib Subedar Clerk (GD)

Hav Clk (GD) Jaibir Singh (No. 4552710N now JC-569366L), 03 Feb 2004@

@(Granted seniority in the rank of Nb Sub Clk wef 01 Feb 2004 without effect on pay and allowances).

To be Naib Subedar

CHM Bansode Mahendra Narayan (No. 4550829Y now JC-569384N), 15 Dec 2003@

@(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Oct 2003).

Hav Dhondiram Ramchandra Bansode (No. 4554688M now JC-569385W), 27 Jan 2004@@

@@(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 07 Oct 2003).

Hav Josheph Khes (No. 4552059W now JC-569386Y), 08 Jan 2004@@@

@@@ (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 15 Oct 2003).

Hav Manik Ratan Kar (No. 4551877L now JC-569387F), 12 Dec 2003#

#(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Nov 2003).

Hav Jagdish Singh Nayal (No. 4550304P now JC-569388K), 17 Nov 2003##

##(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Nov 2003).

CQMH Datbal Singh Varna (No. 4550383P now JC-569389M), 01 Jan 2004@

@(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Dec 2003).

Hav Darshan Singh (No. 4557274L now JC-569390F), 20 Jan 2004@@

@@(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 09 Dec 2003).

Hav Kumar Sapkal Dayanand Chandu (No. 4558049H now JC-569391K), 16 Jan 2004@@@

@@@ (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Jan 2004).

Hav Ghamandi (No. 4550491Y now JC-569392M), 01 Jan 2004

Hav Chhote Singh (No. 4550361N now JC-569393P), 07 Feb 2004\$

\$(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Feb 2004).

THE DOGRA REGIMENT

To be Nb Sub (Clk)

Hav/Clk Mohan Singh Rawat (No. 3983511Y now JC-519832Y), 01 Mar 2004

Hav/Clk Hans Raj Chambial (No. 3983526F now JC-519833F), 01 Mar 2004

Hav/Clk Ranjit Singh (No. 3983527K now JC-519834K), 01 Mar 2004

Hav/Clk Jagdish Chand Patyal (No. 3979427F now JC-519835M), 01 Mar 2004

To be Nb Sub

Hav Subash Chand (No. 3981792F now JC-519836P), 14 Mar 2004

Hav Madan Lal (No. 3981771L now JC-519837X), 26 Mar 2004

Hav Karam Singh (No. 3981250Y now JC-519825H), 02 Dec 2003

Hav Kalyan Chand (No. 3981218H now JC-519826L), 21 Dec 2003

Hav Jai Paul (No. 3981225Y now JC-519827N), 01 Jan 2004

Hav Surjan Singh (No. 3981232P now JC-519828W), 01 Jan 2004

Hav Onkar Singh (No. 3979355X now JC-519829Y), 14 Jan 2004

Hav Rup Lal (No. 3981058N now JC-519830N), 25 Mar 2004+

+Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 14th Jan 2004 without effect on pay and allowances.

Hav Ramesh Chand (No. 3979371A now JC-519831W), 24 Mar 2004

THE PARACHUTE REGIMENT

To be Nb Sub

Hav Nathu Singh (No. 13615333F now JC-412838H), 01 Nov 2003

Hav Bhup Singh (No. 13615047A now JC-412839L), 01 Dec 2003

Hav Numal Chandra Gogoi (No. 13616203L now JC-412840A), 07 Jul 2003

Hav Balkar Singh (No. 2474609M now JC-412841H), 22 Oct 2003

Hav Yudhbir Singh Rana (No. 13613490P now JC-412842L), 13 Feb 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2003 without effect on pay and allowances.)

Hav Manohar Singh (No. 13613493H now JC-412843N), 16 Feb 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2003 without effect on pay and allowances.)

Hav Devi Prasad (No. 13613580W now JC-412844W), 16 Feb 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2003 without effect on pay and allowances.)

Hav Biren Gogoi (No. 13613633K now JC-412845Y), 13 Feb 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2003 without effect on pay and allowances.)

Hav Phool Singh (No. 13614372N now JC-412846F), 01 Sep 2003

Hav Gagan Singh (No. 13614937M now JC-412847K), 01 Dec 2003

Hav Kedari Singh (No. 13614975K now JC-412848M), 01 Oct 2003

Hav Chitra Singh, SM (No. 4068741P now JC-412849P), 01 Dec 2003

Hav Nand Lal Jhajharia (No. 13616724Y now JC-412850K), 01 Dec 2003

Hav Chhotu Ram (No. 2784678P now JC-412851M), 01 Jan 2004

Hav Mohan Singh (No. 13614362K now JC-412853X), 15 Mar 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2003 without effect on pay and allowances.)

Hav Khem Raj (No. 13748418M now JC-412856L), 01 Mar 2004

To be Nb Sub Clk

Hav (Clk) Gopinathan Pillai (No. 13612454X now JC-412852P), 01 Mar 2004

Hav (Clk) Satya Pal Singh Phogat (No. 13614437W now JC-412854A), 01 Mar 2004

Hav (Clk) Puran Singh Gailakoti (No. 13615126P now JC-412855H), 01 Apr 2004

THE ASSAM REGIMENT

To be Nb Sub

Hav Babul Chandra Deka (No. 4352676P now JC-548962K), 20 Mar 2004/02 Jan 2004

Hav Kalasana Rajkumar (No. 4354529L now JC-548964P), 20 Mar 2004/02 Jan 2004

Hav T Basanta Singh (No. 4357148P now JC-548966A), 20 Mar 2004/01 Feb 2004

Hav Kumbhleswar Lukhurakhan (No. 4353075W now JC-548958F), 25 Mar 2004/01 Oct 2003

Hav Putul Chandra Das (No. 4354236A now JC-548952A), 01 Mar 2004

Hav Bamcha Singha (No. 4356355P now JC-548953H), 01 Mar 2004

Hav Dal Bahadur Tamang (No. 4357174W now JC-548955N), 01 Apr 2004

Hav M Ranjit Singh (No. 4426489N now JC-548954L), 01 Apr 2004

Hav Thenkhosei (No. 4356518X now JC-548957Y), 05 Apr 2004/01 Apr 2004

Hav TH Bacha Singh (No. 4353151L now JC-548967H), 28 Mar 2004/01 Jan 2004

Hav Kaikhanlian Simte (No. 4353437M now JC-548968L), 28 Mar 2004/01 Jan 2004

Hav Kamal Singh Bordoloi (No. 4353327X now JC-548969N), 28 Mar 2004/05 Feb 2004

Hav Harka Bahadur Dorjee (No. 4352702L now JC-548939W), 17 Mar 2004/01 Oct 2003

Hav Chino Lotha (No. 4353496Y now JC-548948X), 04 Feb 2004

Hav Lalramsang (No. 4357772N now JC-548920X), 11 Jan 2004/14 Aug 2003

Hav Hiranmoy Sinha (No. 4355192A now JC-548921A), 11 Jan 2004/01 Oct 2003

Hav HR Hringshel Anal (No. 4355883K now JC-548922H), 11 Jan 2004/01 Oct 2003

Hav Om Bahadur Sunar (No. 5448186P now JC-548923L), 30 Dec 2003/01 Dec 2003

Hav Babaton Sinha (No. 4353092W now JC-548945K), 01 Jan 2004

Hav Nikunja Singha (No. 4353093Y now JC-548950P), 01 Jan 2004

Hav Puheswar Bordoloi (No. 4353126Y now JC-548946M), 03 Mar 2004/01 Mar 2004

Hav Pradip Kumar Singha (No. 4353213M now JC-548947P), 01 Apr 2004

Hav Laishram Sarat Ch Singh (No. 4353584P now JC-548974Y), 05 Apr 2004/01 Dec 2003

Hav Deben Phadangary (No. 4353680K now JC-548975F), 05 Apr 2004/01 Dec 2003

Hav Binod Mosahary (No. 4353806Y now JC-548976K), 05 Apr 2004/02 Dec 2003

Hav Md Giasuddin (No. 4352734N now JC-548978P), 05 Apr 2004/01 Jan 2004

Hav Lal Bahadur Gurung (No. 4352710X now JC-548979X), 05 Apr 2004/18 Jan 2004

Hav HR Ramkating (No. 4353954K now JC-548949A), 01 Apr 2004

Hav Khaichinpau Zou (No. 4352461W now JC-548977M), 16 Apr 2004/01 Jan 2004

Hav Hara Kanta Saikia (No. 4355780N now JC-548956W), 20 Apr 2004/01 Apr 2004

Hav Khaikhopau (No. 4354982H now JC-548930F), 24 Apr 2004/01 Feb 2004

To be Nb Sub Clk

Hav Clk Girwar Prasad (No. 4357832X now JC-548971L), 01 Apr 2004

Hav Clk Shyam Babu (No. 4357828P now JC-548973W), 01 Apr 2004

Hav Clk Ram Pal Singh (No. 4357831P now JC-548972N), 01 Apr 2004

Hav Clk Jiten Chandra Saikia (No. 4353280X now JC-548990W), 01 May 2004

THE GARHWAL RIFLES

To be Nb Sub

Hav Birendra Kumar (No. 4062132P now JC-529542P), 05 Jan 2004

Hav Kundan Singh (No. 4063241N now JC-529543X),
05 Jan 2004

Hav Anil Khanduri (No. 4062301L now JC-529544A), 01
Mar 2004/01 Feb 2004*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb
2004 without effect on pay and allowances)

Hav Brijpal Singh (No. 4064396M now JC-529545H), 01
Mar 2004/01 Feb 2004*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb
2004 without effect on pay and allowances)

Hav Dharampal Singh (No. 4061268M now JC-529546L),
01 Mar 2004/01 Feb 2004*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb
2004 without effect on pay and allowances)

Hav Tajbar Singh (No. 4062741Y now JC-529547N), 01
Feb 2004

Hav Surender Singh (No. 4061787P now JC-529548W),
01 Feb 2004

Hav Govind Ram (No. 4061937A now JC-529549Y), 01
Feb 2004

Hav Ten Singh Negi (No. 4065217W now JC-529550N),
01 Feb 2004

Hav Maya Singh (No. 4065971X now JC-529551W), 01
Feb 2004

Hav Mathura Prasad (No. 4066195P now JC-529552Y),
01 Feb 2004

Hav Tula Ram (No. 4065530F now JC-529553F), 01 Feb
2004

Hav Prem Singh (No. 4062210F now JC-529554K), 01
Mar 2004/05 Feb 2004*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 05 Feb
2004 without effect on pay and allowances)

Hav Thakur Singh (No. 4062209M now JC-529555M),
01 Mar 2004

Hav Sarita Nand (No. 4062644F now JC-529514H), 29
Jan 2004/01 Aug 2003*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug
2003 without effect on pay and allowances).

Hav Umed Singh Rawat (No. 4062709K now JC-
529515L), 16 Feb 2004/01 Aug 2003*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug
2003 without effect on pay and allowances).

Hav Dan Singh (No. 4067011X now JC-529516N), 01
Oct 2003

Hav Rajender Singh (No. 4062817N now JC-529517W),
25 Oct 2003

Hav Kalam Singh (No. 4061559M now JC-529519F), 12
Nov 2003

Hav Mohan Singh (No. 4060954N now JC-529521Y), 01
Dec 2003

Hav Kirat Ram (No. 13613509M now JC-529522F), 01
Dec 2003

Hav Bag Singh (No. 4064847K now JC-529523K), 01
Dec 2003

Hav Kunwar Singh, VrC (No. 4068303M now JC-
529524M), 01 Dec 2003

Hav Vijay Kumar (No. 4062880H now JC-529525P), 13
Jan 2004/01 Dec 2003*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec
2003 without effect on pay and allowances).

Hav Badar Singh (No. 4064393F now JC-529526X), 15
Feb 2004/12 Dec 2003*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 12 Dec
2003 without effect on pay and allowances).

Hav Shishupal Singh (No. 4061578X now JC-529527A),
01 Jan 2004

To be Nb Sub (Clk)

Hav (Clk) Devendar Singh (No. 4061420P now JC-
529518Y), 01-Nov 2003

Hav (Clk) Harish Prakash (No. 4061487N now JC-
529520W), 01 Dec 2003

9 GR

To be Naib Subedar

Hav Lov Bikram Khan (No. 5845417H now JC-629641M),
01 Mar 2004

Hav Mahendra Bahadur KC (No. 5845492M now JC-
629642P), 01 Mar 2004

Hav Bom Bahadur Karki (No. 5845613H now JC-
629643X), 12 Mar 2004/01 Mar 2004*

Hav Man Bahadur KC (No. 5845491K now JC-629644A),
04 Mar 2004/01 Mar 2004*

Hav Rajendra Bahadur Rawat (No. 5846078A now JC-
629645H), 04 Mar 2004/01 Mar 2004*

Hav Bet Bahadur Rokaya (No. 5846337X now JC-
629635Y), 19 Feb 2004/01 Feb 2004*

Hav Chandra Bahadur Chhetri (No. 5846622W now JC-
629636F), 10 Feb 2004/01 Feb 2004*

Hav Devendra Bom Mall (No. 5846982M now JC-
629637K), 11 Feb 2004/01 Feb 2004*

Hav Parma Nand Khatri (No. 5845452L now JC-
629638M), 21 Feb 2004/01 Feb 2004*

Hav Ram Bahadur Khandka (No. 5845316P now JC-
629639P), 10 March 2004/01 Mar 2004*

Hav Bal Bahadur Khatri (No. 5845306L now JC-629640K), 01 Mar 2004

Hav Raju Chhetri (No. 5845264A now JC-629629L), 21 Feb 2004/01 Dec 2003*

Hav Krishna Bahadur Chhetri (No. 5845218P now JC-629630A), 08 Feb 2004/01 Jan 2004*

Hav Ram Bahadur Shahi (No. 5845404L now JC-629631H), 01 Mar 2004/01 Jan 2004*

Hav Indra Bahadur Malla (No. 5845414P now JC-629632L), 21 Feb 2004/01 Jan 2004*

Hav Him Bahadur Thapa (No. 5845227H now JC-629633N), 10 Feb 2004/01 Feb 2004*

Hav Daya Bahadur KC (No. 5845598Y now JC-629634W), 10 Feb 2004/01 Feb 2004*

Hav Harka Bahadur Bhandari (No. 5845135K now JC-629623K), 10 Jan 2004/01 Jan 2004*

Hav Dan Bahadur Chhetri (No. 5845199P now JC-629624M), 31 Jan 2004/01 Jan 2004*

Hav Panu Malla (No. 5845202K now JC-629625P), 10 Jan 2004/01 Jan 2004*

Hav Padam Bahadur Khatri (No. 5845894K now JC-629626X), 10 Jan 2004/01 Jan 2004*

Hav Kamal Bahadur Khadka (No. 5846508Y now JC-629627A), 01 Jan 2004

Hav Khim Bahadur Mall (No. 5844917N now JC-629628H), 08 Feb 2004/01 Dec 2003*

Hav Khum Bahadur Khattri (No. 5846501P now JC-629617W), 26 Dec 2003/01 Dec 2003*

Hav Lal Chandra Khattri (No. 5845281K now JC-629618Y), 13 Jan 2004/01 Dec 2003*

Hav Keshar Bahadur Chhetri (No. 5845363M now JC-629619F), 31 Dec 2003/01 Dec 2003*

Hav Khem Bahadur KC (No. 5845991F now JC-629620W), 08 Jan 2004/01 Dec 2003*

Hav Kul Bahadur Chhetri (No. 5845562A now JC-629621Y), 01 Jan 2004

Hav Ek Bahadur Thapa (No. 5845591P now JC-629622F), 01 Jan 2004

Hav (Clk) Suresh Kumar Chhetri (No. 5845684K now JC-629611P), 24 Dec 2003/01 Nov 2003*

Hav (Clk) Rudra Bahadur Khattri (No. 5845810H now JC-629612X), 06 Jan 2004/01 Nov 2003*

Hav Dil Bahadur Basnet (No. 5845475M now JC-629613A), 26 Dec 2003/01 Nov 2003*

Hav Krishna Bahadur Malla (No. 5845412K now JC-629614H), 15 Dec 2003/01 Nov 2003*

Hav Jagat Bahadur Mahat (No. 5845694N now JC-629615L), 13 Jan 2004/01 Nov 2003*

Hav Mohan Bahadur KC (No. 5846418X now JC-629616N), 01 Jan 2004/01 Dec 2003*

Hav Ram Bahadur Shahi (No. 5845203F now JC-629605F), 13 Nov 2003/01 Oct 2003*

Hav Som Bahadur Chhetri (No. 5845289W now JC-629606K), 14 Nov 2003/01 Oct 2003*

Hav Chola Kant Chhetri (No. 5845073P now JC-629607M), 01 Oct 2003

Hav Gopal Thapa (No. 5845375F now JC-629608P), 08 Nov 2003/01 Oct 2003*

Hav Chin Bahadur Khatri (No. 5847077K now JC-629609X), 08 Nov 2003/01 Nov 2003*

Hav Laxmi Bahadur Chhetri (No. 5845295K now JC-629610M), 26 Dec 2003/01 Oct 2003*

Hav Humendra Singh Raymajhi (No. 5845137P now JC-629599Y), 20 Nov 2003/01 Sep 2003*

Hav Dol Bahadur Basnet (No. 5845415X now JC-629600H), 04 Oct 2003/01 Sep 2003*

Hav (Clk) Hargovind Singh (No. 5846287X now JC-629601L), 06 Nov 2003/01 Oct 2003*

Hav Harka Bahadur Chhetri (No. 5845148F now JC-629602N), 24 Nov 2003/01 Oct 2003*

Hav Karna Bahadur Roka (No. 5845394M now JC-629603W), 01 Nov 2003/01 Oct 2003*

Hav Sunil Thapa (No. 5846422A now JC-629604Y), 13 Nov 2003/01 Oct 2003*

*(Granted seniority without effect on pay and allowances).

3 GR

To be Naib Subedar

Hav Shant Bahadur Thapa (No. 5245027H now JC-607510F), 06 Nov 2003/01 May 2003*

Hav Shamsheer Bahadur Thapa (No. 5244433W now JC-607511K), 31 Dec 2003/25 Sep 2003*

Hav Jagat Bahadur Pun (No. 5244563X now JC-607512M), 31 Dec 2003/25 Sep 2003*

Hav Man Bahadur Thapa Magar (No. 5244577Y now JC-607513P), 31 Dec 2003/25 Sep 2003*

Hav Rudra Bahadur Gurung (No. 5244447W now JC-607514X), 17 Oct 2003/01 Oct 2003*

Hav Bikram Shahi (No. 5244254W now JC-607515A), 23 Dec 2003/01 Oct 2003*

Hav Prasad Thapa (No. 5244600F now JC-607538F), 13 Feb 2004/01 Feb 2004*

Hav Kamal Singh (No. 5244756Y now JC-607539K), 10 Mar 2004/01 Feb 2004*

Hav Raj Kumar Udas (No. 5246248F now JC-607540X),
02 Feb 2004/23 Feb 2004

Hav Bhim Bahadur Thapa (No. 5244427H now JC-607541A), 01 Mar 2004

Hav (Clk) Mohamad Ahsan (No. 5245016W now JC-607542H), 01 Apr 2004

Hav Prem Bahadur Shrestha (No. 5245281M now JC-607533H), 13 Mar 2004/01 Oct 2003*

Hav Khim Bahadur Bhujel (No. 5244578F now JC-607534L), 01 Jan 2004

Hav Narayan Tamang (No. 5244570F now JC-607535N),
01 Jan 2004

Hav Tark Bahadur Roka (No. 5244630Y now JC-607536W), 17 Feb 2004/01 Jan 2004

Hav Khadak Bahadur Thapa (No. 5245443M now JC-607537Y), 21 Mar 2004/01 Jan 2004*

Hav Rajendra Bahadur Thapa (No. 5244916N now JC-607528X), 10 Dec 2003/01 Nov 2003*

Hav Bom Bahadur Gurung (No. 5244506X now JC-607529A), 01 Dec 2003

Hav Sher Bahadur Gurung (No. 5244520K now JC-607530P), 23 Dec 2003/01 Dec 2003*

Hav Narendra Prakash Malla (No. 5244664M now JC-607531X), 05 Feb 2004/01 Oct 2003*

Hav Harka Bahadur Gurung (No. 5244651P now JC-607532A), 05 Feb 2004/01 Dec 2003*

Hav Krishna Prasad Gurung (No. 5245113N now JC-607522W), 06 Nov 2003/01 Oct 2003*

Hav Dan Bahadur Purja (No. 5245260W now JC-607523Y), 06 Nov 2003/01 Oct 2003*

Hav Dharvindra Thapa (No. 5245279P now JC-607524F),
06 Dec 2003/01 Oct 2003*

Hav Sita Ram Pradhan (No. 5244843M now JC-607525K),
01 Nov 2003/01 Oct 2003*

Hav Kul Bahadur Rana (No. 5244486P now JC-607526M), 01 Nov 2003

Hav Rami Ram Parki (No. 5244541A now JC-607527P),
25 Nov 2003/01 Nov 2003*

Hav Bhim Bahadur Thapa (No. 5244243K now JC-607516H), 25 Nov 2003/01 Oct 2003*

Hav Dal Bahadur Thapa (No. 5244398Y now JC-607517L), 25 Nov 2003/01 Oct 2003*

Hav Anand Singh Thapa (No. 5244438P now JC-607518N), 25 Nov 2003/01 Oct 2003*

Hav Yam Bahadur Thapa (No. 5244468M now JC-607519W), 25 Nov 2003/01 Oct 2003

Hav Ishwar Bahadur Shahi (No. 5244604X now JC-607520L), 05 Feb 2004/25 Sep 2003*

Hav Ram Bahadur Thapa (No. 5245056X now JC-607521N), 06 Nov 2003/01 Oct 2003*

*(Granted seniority without effect on pay and allowances).

THE SIKH LI To be Nb Sub (GD)

Hav Tarsem Singh (No. 4464172H now JC-509094M), 14
Jan 2004*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect
from 22 Oct 2001 without effect on pay and allowances).

Hav Chamkaur Singh (No. 4469379M now JC-509095P),
13 Feb 2004*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect
from 01 Jul 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Amarjit Singh (No. 4466688K now JC-509096X), 05
Feb 2004*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect
from 13-Jul 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Sukhminder Singh (No. 4467806Y now JC-509097A), 01 Sep 2003

Hav Sarabjit Singh (No. 4467507A now JC-509098H), 01
Sep 2003

Hav Surat Singh (No. 4460957P now JC-509099L), 05
Oct 2003

Hav Balvinder Singh (No. 4461468W now JC-509100P),
05 Nov 2003

Hav Nirmal Singh (No. 4463701X now JC-509101X), 06
Mar 2004*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect
from 27 Nov 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Dilbag Singh (No. 4463208K now JC-509102A), 02
Dec 2003

Hav Govind Singh (No. 4465473Y now JC-509104L), 01
Jan 2004

Hav Jaj Singh (No. 4464254L now JC-509105N), 14 Jan
2004

Hav Nazar Singh (No. 4466231H now JC-509107Y), 15
Mar 2004*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect
from 01 Feb 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Parshan Singh (No. 4465346K now JC-509108F), 18
Feb 2004

Hav Gurmit Singh (No. 4464313M now JC-509110Y),
06 Mar 2004

To be NB Sub (Clk) (GD)

Hav (Clk) Bachhittar Singh (No. 4463408A now JC-509103H), 01 Jan 2004

Hav (Clk) Varinder Singh (No. 4470822F now JC-509106W), 01 Feb 2004

Hav (Clk) Subhash Chander (No. 4465034N now JC-509109K), 01 Mar 2004

DIWAKAR
Under Secy.

No. 10, dated 13th December 2004—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY
PERMANENT COMMISSION
(ARMY MEDICAL CORPS)

Col (& equivalent) to be Brig (& equivalent)

AKS Bairaria (MR-03614-N), 16 Jun 2003 with notional seniority without effect on pay & pension from 02 Apr 2003.

BB Mohanty (MR-04612-P), 15 Jan 2004 with notional seniority without effect on pay & pension from 04 Jul 2003.

S Chaudhuri (MR-04616-L), 28 Jul 2004 with notional seniority without effect on pay & pension from 02 Aug 2003.

Mahavir Singh (MR-3029-N), 03 Apr 2004 with notional seniority without effect on pay & pension from 02 Dec 2003.

CM Adya (MR-03562-H), 13 May 2004 with notional seniority without effect on pay & pension from 04 Jan 2004.

Major (& equivalent) to be Lt Col (Selection)

Krishan Chander (NTR-16490-H), 01 Oct 2003

To be Major

Abhijit Basu (MS-13879-L), (MR-08007-Y), AMC—28 Dec 2002.

(MoD Notification published in the Gazette of India dated 13 Dec 2003, in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Manoj Nagi (MS-13454-M), (MR-08006-W), AMC—01 Feb 2003.

(MoD Notification published in the Gazette of India dated 24 Apr 2004, in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

V Pavithra (MS-13643-W), (MR-08005-N), AMC—09 Aug 2001.

(MoD Notification published in the Gazette of India dated 13 Dec 2003 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Shikhar Gaur (MS-13593-W), (MR-07998-L), AMC—22 Jan 2003.

(MoD Notification published in the Gazette of India dated 24 Apr 2004, in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Monalisa Roy (MS-13980-L), (MR-08013-M), AMC—13 Apr 2003.

To be Capt

Capt (Km) Richa Joshi (MR-07869-L) AMC—04 Jan 2004

Capt (Km) T P Shashikala (MR-07849-K), AMC—04 Jan 2004

Capt Ashish Pande (MR-07842-N), AMC—04 Jan 2004

Capt Lalit Mohan Gupta (MR-07707-A), AMC—04 Mar 2003

Capt Vidya Bhushan Pandey (MR-07716-F), AMC—04 Mar 2003

Capt Prem Shankar Kumar (MR-07739-H), AMC—04 Mar 2003

Capt (Km) Kothuri Chandrika Prasad (MR-07756-H), AMC—04 Mar 2003

Capt Mangal Murti (MR-07917-A), AMC—23 Feb 2004

Capt Jitendra Sharma (MR-07897-X) AMC—04 Jan 2004

M SRIVASTAVA
Brig
Dy. DGAFMS (P)

No. 11, dated 14th Dec 2004—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY
PERMANENT COMMISSION
Capt to be Maj

IC No., Name & Arm and date

54682 Jasvir Singh, Inf

54733 Manoj Kumar Sirohi, AC

—06 Nov 2002

54703 G Kumar, ASC

(But Pay & Allowances wef 27 Oct 2003)

—06 Nov 2002

54974 Raj Singh, ASC

—19 Apr 2004

55516 Yogesh Dadu, Engrs

—09 May 2004

52855 Rajesh Rath, AOC

53902 Nikhilesh Sharma, ASC

2978 Naveen Kumar Sharma, Engrs

52982 Tarun Uppal, EME

—11 Jun 2004

54569 Karun Pratap Singh, Engrs

—12 Jun 2004

K S VERMA
Jt Dir.
MS-8C

(ARMY BRANCH)

No. 12, dated 13th December 2004—The President is pleased to permit the undermentioned officers relinquish their short service commission in the Army Medical Corps wef 18 Aug 2003 and to grant them permanent commission in the Army Medical Corps wef the same date under AI 74/76 as amended :—

(REGULAR ARMY)
(PERMANENT COMMISSION)
To be Capt (on Prob)

Shikhar Gaur (MS-13593-W) (MR-07998-L), AMC with seniority for pay and promotion wef 22 Jan 1999. (MoD Notification published in the Gazette of India dated 25 Mar 2000 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled.)

Manoj Nagi (MS-13454-M) (MR-08006-W), AMC with seniority for pay and promotion wef 01 Feb 1999. (MoD Notification published in the Gazette of India dated 05 Feb 2000 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled.)

The President is pleased to permit the undermentioned officer relinquish his short service commission in the Army Medical Corps wef. 24 Jan 2004 and to grant him permanent commission in the Army Medical Corps wef the same date under AI 74/76 as amended :—

(REGULAR ARMY)
(PERMANENT COMMISSION)
To be Capt (on Prob)

V Pavithra (MS-13643-W) (MR-08005-N), AMC—09 Aug 1999 with seniority for pay and promotion wef 09 Aug 1997. [This includes 24 months of antedate of seniority for Post Graduate Qualification (DNB (Paediatrics)) which will count for pension not for gratuity.] (MoD Notification published in

the Gazette of India dated 09 Mar 2002 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled.)

The President is pleased to permit the undermentioned officer relinquish his/her short service commission in the Army Medical Corps wef. 21 Jan 2004 and to grant him/her permanent commission in the Army Medical Corps wef the same date under AI 74/76 as amended :—

(REGULAR ARMY)
(PERMANENT COMMISSION)
To be Capt (on Prob)

Abhijit Basu (MS-13879-L) (MR-08007-Y), AMC—28 Jun 1999 with seniority for pay and promotion wef 28 Dec 1998. (This includes 06 months of antedate of seniority for Hospital Appointment which will count for pension not for gratuity) (MoD Notification published in the Gazette of India dated 05 Jul 2003 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled.)

Monalisa Roy (MS-13980-L) (MR-08013-M), AMC 13 Oct 1999 with seniority for pay and promotion wef 13 Apr 1999. (This includes 06 months of antedate for Hospital Appointment which will count for pension not for gratuity.) (MoD Notification published in the Gazette of India dated 24 Apr 2004 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled.)

M SRIVASTAVA
Brig
Dy. DGAFFMS (P)

No. 13, dated 10th Dec 2004—The President is pleased to permit the undermentioned AD Corps officer to retire from army services on attaining the age of superannuation :—

REGULAR ARMY
ARMY DENTAL CORPS
(PERMANENT COMMISSION)
RETIREMENT

Col Farhat Umar (DR-10284-H), 30 Sep 2004 (AN)

PARAMJIT SINGH
Maj Gen.
Addl DGDS

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2005।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2005.